

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940

No. 392]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

**का.आ. 505(अ).**—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

उड़ीसा राज्य में मयूरभंज और क्योझर जिले में स्थित सिमिलिपाल-हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और सिमिलिपाल बाघ रिज़र्व का बफर भाग **5246.6 वर्ग किलोमीटर** में फैला हुआ है। सिमिलिपाल वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 2305 वर्ग किलोमीटर है, सिमिलिपाल बाघ रिज़र्व 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 191.60 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित है;

**और**, इन संरक्षित क्षेत्रों की वनस्पति और जीवजन्तु समृद्ध जैविक महत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिमिलिपाल वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी उड़ीसा के असीमित पारिस्थितिकी पारि-प्रणाली मूल्य और बृहत जल क्षेत्र के साथ समीपवर्ती वन के बृहत क्षेत्रों में से एक है, यहां पर्यावास की समृद्ध विविधता और भूदृश्य की विविधता है और 1253 पुष्पित पौधों की प्रजातियां, 99 गैर-पुष्पित प्रजातियों के साथ आकर्षक वनस्पति और जीवजन्तुओं का आश्रय स्थल है, जिसमें 94 ऑर्किड की प्रजातियां, 55 स्तनधारियों की प्रजातियां, 362 पक्षियों की प्रजातियां, 62 सरीसृपों की प्रजातियां, 21 उभयचरों की प्रजातियां और कीड़ों मकोड़ों और सूक्ष्म वनस्पतियों की कई प्रजातियां शामिल हैं; सिमिलिपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में हाथियों की बृहत संख्या के साथ-साथ बाघों का आश्रय स्थल है, जिसमें अद्वितीय मेलेनिस्टिक बाघ के लिए पर्यावास भी शामिल है; हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की जैव विविधता के संबंध में, यह हृदगढ़ डैम नामित आर्द्रभूमि के साथ 30 स्तनधारियों की प्रजातियों, 37 पक्षियों की प्रजातियों, 15 सरीसृपों और उभयचरों की प्रजातियों के लिए पर्यावास है और उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रकार है जिसमें साल एवं संबंधित प्रजातियों की अधिकतर है और वन प्रकार (क) शुष्क प्रायद्विपीय वन (5बी/सी 1सी) (ख) उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन (5बी/सी2) है;

**और**, स्तनधारियों में एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सीमस*), गौर (*बोस गौरस*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), सांभर (*रुसा यूनीक्लोरो*), हनुमान लंगूर (*सेमनोपिथेकस इंटेल्सुस*), रेसस मकाक्रे (*मकाका मुलाट्रा*), भारतीय साही (*हिस्ट्रीक्स इंडिका*), भारतीय विशाल गिलहरी (*रतुफा इंडिका*), भारतीय साल (*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), आदि शामिल हैं। मांसाहारी में बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), वनबिलार (फेलिस चाउस), भारतीय भेड़िया (कैनिस लुपुस), सियार (कैनिस ऑरियस), बंगाल लोमड़ी (वुलपस बेंगालेंसिस), तेंदुआ बिल्ली (फेलिस बेनगालेन्सीस), शामिल हैं;

**और**, सिमिलिपाल वन्यजीव अभयारण्य की बालासोर जिले में कुलधिया वन्यजीव अभयारण्य के साथ और क्यौंझर जिला में हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हाथियों, बाघों और अन्य पशुओं के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण सम्पर्कता है;

**और**, सिमिलिपाल बाघ रिज़र्व और हृदगढ़ अभयारण्य के निकटवर्ती क्षेत्र में आयरन, प्लैटिनम, पैलेडियम आदि जैसे सामरिक राष्ट्रीय महत्व के खनिज उपलब्ध हैं; क्षेत्र के लोग आजिविका के लिए विद्यमान खानों पर निर्भर करते हैं;

**और**, कुलधिया अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन पहले ही अलग से अधिसूचित है;

**और**, सिमिलिपाल-हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमा इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट है, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योग या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

**अतः**, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा राज्य में सिमिलिपाल-हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को सिमिलिपाल-हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन उड़ीसा राज्य में हृदगढ़ अभयारण्य की पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी भाग पर सीमा निकटवर्ती महत्वपूर्ण पर्यावास के साथ **0 (शून्य) किलोमीटर** तक विस्तृत है के साथ 1765.29 वर्ग किलोमीटर है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग पर 500 मीटर, हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा के चारों ओर 2.0 किलोमीटर और सिमिलिपाल वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से **पांच किलोमीटर** और बाकी बफर जिसमें सिमिलिपाल बाघ रिज़र्व के गलियारे शामिल है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र का विवरण है:

- (क) सिमिलिपाल बाघ रिज़र्व सहित 5 किलोमीटर से परे शामिल बफर सिमिलिपाल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर : 1686.20 वर्ग किलोमीटर
- (ख) हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर : 79.09 वर्ग किलोमीटर

कुल : 1765.29 वर्ग किलोमीटर

(2) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख और उपाबंध-II ग** के रूप में संलग्न है।

(3) सिमिलिपाल-हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची सारणी **क** और **ख** के **उपाबंध III** में दी गई है।

(4) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-**(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण और वन,
- (ii) वन और वन्यजीव,
- (iii) कृषि,
- (iv) राजस्व,
- (v) शहरी विकास,
- (vi) पर्यटन,
- (vii) ग्रामीण विकास,
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,
- (ix) नगरपालिका,
- (x) लोक निर्माण विभाग,
- (xi) खान विभाग,
- (xii) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, और
- (xiii) उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप;

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

- (2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश इस रीति से बनाए जाएंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।
- (3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।
- (घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-
- (i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
- परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;
- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) **प्राकृतिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के

निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.**- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.**- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.**- (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.**- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;
- (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

### सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
10.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी:</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी ।</p>
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।</p> <p>परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व</p>

		अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केन्द्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा देना विनियमित होगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

22.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
30.	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अधीन विनियमित होगा।
31.	सार्वजनिक अधिकार।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
32.	छोटे चारे का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
33.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

**5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति .-** प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र.स.	मानीटरी समिति का गठन	पद
1.	कलेक्टर, मयूरभंज	अध्यक्ष, पद के अनुसार
2.	कलेक्टर, क्योँझर/कलेक्टर क्योँझर का प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	डीएफओ-सह वन्यजीव वार्डन- बारिपडा, करांजिआ और रायरंगपुर और क्योँझर (वन्यजीव) संभाग, आनंदपुर	सदस्य;
4.	पुलिस अधीक्षक, मयूरभंज	सदस्य;
5.	पुलिस अधीक्षक, क्योँझर/पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि, क्योँझर	सदस्य;
6.	पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि, (जिसे पीसीसीएफ (वन्यजीवन) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जायेगा)	सदस्य;
7.	उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	मयूरभंज जिले के स्थानीय ग्राम पंचायत निकाय का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
9.	क्योँझर जिले के स्थानीय ग्राम पंचायत निकाय, आनंदपुर उप-प्रभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
10.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ (जिसे उड़ीसा सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये नामित किया जायेगा)	सदस्य;
11.	उप निदेशक, सिमिलिपाल बाघ रिज़र्व	सदस्य- सचिव।

**6. विचारार्थ विषय.-** (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना

के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
  - (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
  - (6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
  - (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
  - (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा.सं. 25/21/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

### **उपाबंध-I**

#### **सिमिलिपाल-हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

सीमा रेखा जशीपुर से लगभग 2 किलोमीटर बरदमपहाड़ रिजर्व वन के अंतर्गत जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 6' 12.31" उ 21° 58' 11.49" के साथ बिंदु सं-1 से आरंभ होती है इसके बाद लोहाबेरा, बारापनदूगंडी, कूकूदाझरन नाला, गूदूरिया, सारागदा ग्राम से होते हुए जाती है, जी.पी.एस निर्देशांक पू 86° 13' 48.7" उ 22° 06' 42.9" खंडकेई जलाशय को छूता है और जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 14' 45.2" उ 22° 7' 15.8" उसी जलाशय को छोड़कर इसके बाद रंगामतिया, कोईलासूता,पोलास्वनी ग्राम से होते हुए जाते हैं, इसके बाद नौदीही ग्राम के निकट बंकाबहल जलाशय को पार करके जाती है, इसके बाद जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 21' 56.43" उ 22° 9'


16.10" (पारावरी ग्राम से 400 मीटर) बिंदु-2 में डियोदंग एवं पाराभरी ग्राम से होते हुए जाते हैं इसके बाद छतन साही, कूदरसाही, बीसोई ग्राम को पार करके जाती है इसके बाद एन.एच.-6, कादापानी और पूनदीदा ग्राम को पार करके जाती है इसके बाद सिमिलिपाल बाघ रिजर्व बफर सीमा रेखा के साथ जाती है और सिमिलिपाल बाघ रिजर्व सीमा के निकटवर्ती ग्राम कनकाराहारा पहुंचती है। इसके बाद यह पूर्व की ओर जाती है इसके बाद सिमिलिपाल बाघ रिजर्व की सामान्य सीमा और उड़ीसा-झारखंड अंतःराज्य सीमा के साथ जाती है इसके बाद सिमिलिपाल बाघ रिजर्व की सीमा में जाती है इसके बाद बाताझरन, रून्दादीहा, दौरसूनी ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद यह ताराना, भूयानदीही ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद यह दानादाखला के साथ और सिमिलिपाल बाघ रिजर्व सीमा के साथ जाती है और एन.एच-6 को पार करके और पू 86° 28' 23.98" उ 22° 10' 29.07" बिंदु-3 पहुंचती है। इसके बाद यह चौपानी ग्राम को पार करके और रेलवे लाइन और हीजीली ग्राम के निकट बूधाबलंग नदी से होते हुए जाती है इसके बाद असनबानी, झौनगरिया, कांडला ग्राम से होते हुए और भूधाघाडा नदी और घूदू-गौधा नदी को पार करके इसके बाद धोबनीजोरा ग्राम को पार करके और बोईदीकोथा ग्राम के उत्तरी भाग पहुँचती है इसके बाद भूजूबनी, पतीहींजा ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद नौगन ग्राम की दक्षिणी भाग के निकट बूधाबलंग नदी को पार करके इसके बाद कुमारपन ग्राम को पार करती है और पुनः बूधाबलंग, कुलीपल, पतीसीमिली, गोबिंदपुर, सलबनी, मंगराजिया नदी को पार करके इसके बाद कुलधिया ग्राम के निकट बूधाबलंग नदी को पार करती है इसके बाद छालापाडा ग्राम और गौररूमा ग्राम में जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 23' 24.08" उ 22° 19' 58.61" बिंदु 4 के निकट पलपाला नदी को पार करती है। इसके बाद झनुदीहा, किथाजनदीहा ग्राम से होते हुए जाती है और कून्दाबनी ग्राम के निकट कैनल को पार करती है इसके बाद बलीमुंदेली ग्राम के निकट बलदीहा कैनल को पार करके इसके बाद मछनगसाही, दमदोरपुर, सरीसाभीला, भालूघर, हतीमोरा, बारालासाही, कमलसोल, अस्थाझरन ग्राम से होते हुए जाती है और नौगांव ग्राम के निकट दूकूरा आर.एफ. के साथ होते हुए जाती है इसके बाद बनग्रेनदी गोपालपुर, तरकीझरन, पथर, झरला, नछीपुर, कूदासाही, दुबाराजपुर, मोल्हारपाडा, चंद्रापुर ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद कोल्हा-नाला को पार करके और इसके बाद हतसाही, खोदीकसल, हतीमोरा, बलीछतरा, अंगरपाडा, कूतीलिंग ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद दियो नदी को पार करती है और फूलझरी आर.एस. में जाती है इसके बाद लंगासाही ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद असनबानी आर.एफ की सीमा रेखा के साथ जाती है इसके बाद जी.पी.एस.निर्देशांक पू 86° 30' 19.98" उ 22° 8' 52.53" बिंदु-5 में कलो डैम के अंतर्गत जाती है। इसके बाद यह बाराझर ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद यह कतूरिया, कूतापरबा, पूरूनापानी, शूकुरबूरू ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद यह सिमिलिपाल बाघ रिजर्व बफर सीमा के साथ जाती है और जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 39' 45.92" उ 21° 58' 29.39" बिंदु-6 में भोगदोपा कॉलोनी पहुंचती है। इसके बाद यह जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 27' 2.98" उ 21° 30' 53.64" बिंदु-7 में दूमूकाबानी, माथलाचौला, श्रीपाडामनजरीपुर ग्राम से होते हुए जाती है। इसके बाद यह जौनरी आर.एफ. से होते हुए जाती है इसके बाद रूग्ररी, हरीसाही ग्राम को पार करके इसके बाद जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 17' 4.62" उ 21° 23' 44.97" बिंदु-8 में पहुंचती है जो कि सूकौपाडा पी.आर.एफ. के निकट है। इसके बाद यह सूकौपाडा पी.आर.एफ. के साथ जाती है और उसी पी.आर.एफ. को पार करके और जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 20' 21.32" उ 21° 21' 20.65" बिंदु-9 पहुंचती है जो कि सूकौपाडा पी.आर.एफ. के निकट है। इसके बाद यह सूकौपाडा पी.आर.एफ. के साथ जाती है उसी पी.आर.एफ. को पार करके और जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 22' 34.91" उ 21° 19' 12.63" बिंदु-10

पहुँचती है। इसके बाद सूकौपाडा पी.आर.एफ. की सीमा के साथ जाती है और जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 21' 15.16" उ 21° 19' 16.68" बिंदु-11 में जिला सीमा पहुँचती है। इसके बाद यह मयूरभंज और कियोँझर (बौला आर.एफ.) को जिला सीमा के साथ जाती है और जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 21' 28.47" उ 21° 17' 57.08" बिंदु-12 में मयूरभंज-कियोँझर-बालासोरे जिला के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद यह कियोँझर बालासोरे की जिला सीमा के साथ जाती है और जरहाबैंक ग्राम पहुँचती है इसके बाद पश्चिम की ओर जाती है, बौला आर.एफ को पार करके इसके बाद नौसाही, संकाना, कूसातीकीरी ग्राम से होते हुए जाती है और हदगड जलाशय और बौला आर.एफ. के साथ जाती है और जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 17' 49.58" उ 21° 16' 32.70" हदगड ग्राम के निकट बिंदु-13 पहुँचती है जो कि बौला आर.एफ. की सीमा रेखा पर है इसके बाद यह जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 18' 5.42" उ 21° 16' 24.20" बिंदु-4 में पहुँचती है जो कि हदगड ग्राम के अंतर्गत स्थित है इसके बाद मधुवन, हद्राबरी, अम्बानल्ला, पुरूनापानी, सुंदरपाल, थूनीगन ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 14' 12.06" उ 21° 11' 42.45" बिंदु-15 में पहुँचती है जो कि घनी झाड़ी है। इसके बाद यह छेनापाडी, बाराघरिया, मलहरपाडा, चीराजोरी, कैनफुटा, कथाकाटा ग्राम को पार करके कंतीपल ग्राम के निकट जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 12' 31.55" उ 21° 16' 47.43" के बिंदु-16 पहुँचती है। इसके बाद यह घाघरा नाला को पार करती है और कियोँझर और मयूरभंज की सामान्य जिला सीमा को छूती है और जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 11' 38.52" उ 21° 16' 29.73" बिंदु-17 पहुँचती है जो कि नाडा आर.एफ. की सीमा रेखा पर है। इसके बाद यह सिमिलिपाल बाघ रिज़र्व सीमा के साथ के साथ जाती है और जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 12' 28" उ 21° 23' 0.06" बिंदु-18 पहुँचती है अर्थात् सतकोसिया आर.एफ. और भलियाइल पी. आर.एफ. की सामान्य सीमा है। इसके बाद सिमिलिपाल बाघ रिज़र्व सीमा के साथ जाती है और भलियाइल ग्राम के निकट जी.पी.एस. निर्देशांक पू 86° 13' 57.52" उ 21° 23' 56.37" बिंदु सं-19 पहुँचती है। इसके बाद यह गौडियभल आर.एफ. के सिमिलिपाल बाघ रिज़र्व की सीमा के साथ जाती है इसके बाद सतकोसिया आर.एफ. की सीमा रेखा के साथ जाती है और यह बानामूंडा और बानामूंडा आर. एफ. ग्राम को पार करके और सांलादी नदी को पार करती है इसके बाद कथुआरूगन आर.एफ. से होते हुए जाती है इसके बाद यह जोरका आर.एफ. को छूती है और इसके बाद गोबरझार नदी को पार करके जाती है इसके बाद तारामारा ग्राम से होते हुए जाती है और हंदी फूटा आर.एफ. में जाती है इसके बाद तारामारा आर.एफ की सीमा रेखा के साथ जाती है और हंदीफूटा आर.एफ. की सीमा रेखा को छूती है इसके बाद हंदीफूटा आर.एफ. के साथ जाती है और सतकोसिया-ठाकुरमूंडा सड़क को छूती है इसके बाद पुनः हंदीफूटा की सीमा रेखा को छूती है और उसी आर.एफ की सीमा रेखा के साथ जाती है इसके बाद यह ठाकुरमूंडा, रूरुदीबारा ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद चमकापुर आर.एफ. में जाती है इसके बाद यह चैनबंसी मार्केट से होते हुए जाती है इसके बाद यह सीमनदी, कलीजियानी ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद यह कलीजियानी आर.एफ., सोनरीपोसी ग्राम में जाती है इसके बाद केंदूजियानी ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद तेल नदी को पार करती है इसके बाद सरूबील ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद जी.पी.एस निर्देशांक पू 86° 4' 22.15" उ 21° 40' 8.38" बिंदु-20 को छूती है इसके बाद रेंगलबेरा आर.एफ. के साथ-साथ जिला सीमा के साथ जाती है और धीरल नदी को पार करती है और चंदपोसी ग्राम के निकट जी.पी.एस निर्देशांक पू 86° 4' 6.20" उ 21° 41' 19.47" बिंदु-21 छूती है। इसके बाद यह केनझारा आर.एफ, बदसाही ग्राम, पोराईधोरा आर.एफ., कोलीपोसी, रूरग ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद दियो नदी को पार करके इसके बाद बधौकुदर, गरीदीहा, इदलबेडा, कूंजिया,

दुमरीसाही ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद बीउनरिया आर.एफ. में जाती है इसके बाद गीधीबस, हल्दीयापोसी, करारिया, बक्ला, सिंगरपुर ग्राम पहुंचती है इसके बाद बेगुलाआर.एफ. को पार करती है इसके बाद बारासोल ग्राम के निकट खैरी नदी को पार करके जाती है इसके बाद एन.एच-6 को पार करती है और बदमपहाड़ आर.एफ के अंतर्गत आरंभिक बिंदु-1 को छूती है।


### उपाबंध- IIक

उड़ीसा राज्य में सिमिलिपाल-हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र




**उपाबंध- IIख**

**सैटेलाइट चित्र पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सिमिलिपाल-हृदगढ वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी संवीदी जोन का मानचित्र**



**उपाबंध- IIग**

**भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपाशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सिमिलिपाल-हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र**



उपाबंध-III**सारणी क: सिमिलिपाल-हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक**

आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	21.406966 उ	86.181948 पू
50	21.38601 उ	86.156164 पू
100	21.418697 उ	86.192451 पू
150	21.421309 उ	86.217449 पू
200	21.4514 उ	86.20178 पू
250	21.463543 उ	86.145377 पू
300	21.478511 उ	86.126274 पू
350	21.500947 उ	86.151562 पू
400	21.579588 उ	86.144401 पू
450	21.640141 उ	86.101825 पू
500	21.691565 उ	86.068261 पू
550	21.772933 उ	86.038175 पू
600	21.860853 उ	86.033629 पू
650	21.934763 उ	86.083752 पू
700	22.011363 उ	86.125512 पू
750	22.071536 उ	86.192308 पू
800	22.127334 उ	86.261938 पू
850	22.157358 उ	86.34782 पू
900	22.176142 उ	86.435198 पू
950	22.195793 उ	86.406715 पू
1000	22.198185 उ	86.37854 पू
1050	22.228201 उ	86.369221 पू
1100	22.258586 उ	86.369064 पू
1150	22.230886 उ	86.412286 पू
1200	22.267097 उ	86.417061 पू
1250	22.277893 उ	86.360072 पू
1300	22.244342 उ	86.321031 पू
1400	22.290048 उ	86.314067 पू
1450	22.25532 उ	86.305396 पू

1500	22.277436 उ	86.289678 पू
1550	22.316036 उ	86.334655 पू
1600	22.301506 उ	86.381697 पू
1650	22.292699 उ	86.424539 पू
1700	22.317269 उ	86.393246 पू
1750	22.302557 उ	86.442449 पू
1800	22.257647 उ	86.450857 पू
1850	22.211961 उ	86.444034 पू
1870	22.205672 उ	86.461171 पू
1900	22.212079 उ	86.500169 पू
1950	22.190462 उ	86.533376 पू
2000	22.15242 उ	86.520843 पू
2050	22.097589 उ	86.523228 पू
2100	22.075016 उ	86.579667 पू
2150	22.018264 उ	86.640518 पू
2200	21.937256 उ	86.661006 पू
2250	21.85131 उ	86.647774 पू
2300	21.775187 उ	86.603602 पू
2350	21.702142 उ	86.561256 पू
2400	21.625656 उ	86.523769 पू
2450	21.546829 उ	86.479311 पू
2500	21.483855 उ	86.421108 पू
2550	21.460979 उ	86.334174 पू
2600	21.437344 उ	86.263303 पू
2650	21.364305 उ	86.265893 पू
2700	21.313164 उ	86.197792 पू
2750	21.298383 उ	86.175735 पू
2800	21.278182 उ	86.139648 पू
2850	21.3104 उ	86.11152 पू
2900	21.359478 उ	86.122796 पू
2950	21.365567 उ	86.150656 पू
3000	21.376909 उ	86.188546 पू
3050	21.398721 उ	86.230025 पू

## सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के साथ भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1.	21	58	11.49	86	6	12.31
2.	22	9	16.10	86	21	56.43
3.	22	10	29.07	86	28	23.98
4.	22	19	58.61	86	23	24.08
5.	22	8	52.53	86	30	19.98
6.	21	58	29.39	86	39	45.92
7.	21	30	53.64	86	27	2.98
8.	23	23	44.97	86	17	4.62
9.	21	21	20.65	86	20	21.32
10.	21	19	12.63	86	22	34.91
11.	21	19	16.68	86	21	15.16
12.	21	17	57.08	86	21	28.47
13.	21	16	32.70	86	17	49.58
14.	21	16	24.20	86	18	5.42
15.	21	11	42.45	86	14	12.06
16.	21	16	47.43	86	12	31.55
17.	21	16	29.73	86	11	38.52
18.	21	23	0.06	86	12	28.00
19.	21	23	56.37	86	13	57.72
20.	21	40	8.38	86	4	22.15
21.	21	41	19.47	86	4	6.20

## उपाबंध-IV

भू-निर्देशांको के साथ सिमिलिपाल-हृदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	जिला का नाम	पंचायत समिति/ सी.डी. खंड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम के जी.पी.एस. अवस्थान	
				देशांतर	अक्षांश
1	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	अलापानी	86°25'16.47" उ	22°01'10.69" पू
2	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	अमदापानी	86°24'45.62" उ	22°01'19.85" पू

3	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	अंलाजोडी	86°31'01.03" उ	22°05'31.46" पू
4	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	असानसिकार	86°28'22.97" उ	22°05'07.34" पू
5	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	अस्तबेदा	86°26'36.43" उ	22°04'43.24" पू
6	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	अदमतालिया	86°29'40.42" उ	22°03'34.79" पू
7	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	बदगन	86°30'41.31" उ	22°00'47.40" पू
8	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	बदनेदम	86°27'18.71" उ	22°04'12.33" पू
9	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	बलियाधिपा	86°20'45.55" उ	22°02'00.47" पू
10	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	बरीबेदा	86°26'17.70" उ	22°01'42.34" पू
11	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	बसनतपुर	86°30'05.48" उ	22°06'34.19" पू
12	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	बसिलाकाचा	86°24'45.30" उ	22°01'39.72" पू
13	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	बसुकिताला	86°27'36.98" उ	22°06'18.91" पू
14	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	बयंसपाहादी	86°24'07.87" उ	22°02'46.27" पू
15	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	बउतिया	86°25'46.17" उ	22°04'36.75" पू
16	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	बेगुनिअबांध	86°21'04.00" उ	22°02'19.55" पू
17	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	बेतझारान	86°25'27.42" उ	22°03'38.94" पू
18	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	भादुअकचा	86°25'35.37" उ	22°00'48.86" पू
19	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	भागीरथीपुर	86°26'50.57" उ	22°06'12.82" पू
20	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	भोलागादीय	86°28'04.26" उ	22°06'53.36" पू
21	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	भूयसुनि	86°33'29.52" उ	22°03'05.24" पू
22	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	ब्राह्मणगण	86°22'40.37" उ	22°02'29.20" पू
23	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	बुधीखामरी	86°30'35.67" उ	22°04'45.69" पू
24	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	चाकदार	86°32'24.04" उ	22°03'05.24" पू
25	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	चाकिदी	86°24'23.55" उ	22°00'12.37" पू
26	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	चानदबिल	86°27'04.73" उ	22°05'50.22" पू
27	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	चाराबंध	86°22'25.09" उ	22°00'41.26" पू
28	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	दनतियकाचा	86°22'48.17" उ	22°01'04.44" पू
29	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	दसिसुल	86°30'17.88" उ	22°08'06.49" पू
30	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	धादीपानी	86°22'48.03" उ	22°01'31.59" पू
31	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	धोबनीजोडा	86°33'02.61" उ	22°03'55.41" पू
32	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	दुमुहानी	86°23'34.56" उ	22°03'22.00" पू
33	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	फुलझारा	86°25'54.55" उ	22°00'49.45" पू
34	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	गेनदापोखारी	86°32'06.25" उ	22°01'16.37" पू
35	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	घातिदुवा	86°26'12.21" उ	22°04'06.61" पू

36	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	घातकुअनरी	86°22'53.61" उ	22°03'04.99" पू
37	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	गोहीरापाल	86°28'29.64" उ	22°07'13.41" पू
38	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	गोपालपुर	86°29'56.25" उ	22°05'24.81" पू
39	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	गोपालपुर	86°33'50.77" उ	22°01'22.43" पू
40	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	गोथानिदा	86°29'15.84" उ	22°03'07.83" पू
41	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	हतिबारी	86°24'47.28" उ	22°03'52.82" पू
42	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	जलादीहा	86°29'17.11" उ	22°01'53.16" पू
43	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	जम्थालिया	86°24'16.91" उ	22°01'27.30" पू
44	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	झेरकानी	86°25'41.90" उ	22°01'18.27" पू
45	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	झोका	86°29'21.13" उ	22°04'11.94" पू
46	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	झुहा	86°31'29.95" उ	22°00'17.33" पू
47	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	कदाम्दीहा	86°20'29.99" उ	22°01'30.53" पू
48	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	कालापाथर	86°33'16.86" उ	22°01'45.33" पू
49	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	कमलपुर	86°27'20.47" उ	22°05'39.64" पू
50	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	कनछीनदा	86°26'54.25" उ	22°05'15.37" पू
51	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	कनतासाला	86°32'43.57" उ	22°00'50.34" पू
52	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	खडिघाटि	86°24'14.32" उ	22°01'01.87" पू
53	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	खडिकसुल	86°31'07.22" उ	22°04'24.67" पू
54	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	करिपादुमा	86°32'00.71" उ	22°02'06.21" पू
55	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	कुकुरभुका	86°24'41.05" उ	22°00'52.58" पू
56	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	कुम्भीरमुंदी	86°25'10.34" उ	22°04'13.05" पू
57	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	कुनदालबानी	86°32'08.76" उ	22°00'08.28" पू
58	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	कुरूकुतिअ	86°28'58.66" उ	22°04'54.00" पू
59	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	कुसुमबानधा	86°28'56.67" उ	22°05'58.46" पू
60	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	कुसुमटोटा	86°24'04.66" उ	22°00'24.57" पू
61	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	लबानिया	86°29'56.51" उ	22°04'55.00" पू
62	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	लक्किमपोसि	86°27'46.53" उ	22°06'04.04" पू
63	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	मझीगन	86°29'48.84" उ	22°02'52.59" पू
64	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	माझीगन	86°23'33.93" उ	22°02'38.98" पू
65	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	मसिनाबिला	86°28'27.15" उ	22°02'35.98" पू
66	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	मोहनपुर	86°22'13.26" उ	22°02'43.37" पू
67	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	नयदासिसुल	86°29'39.95" उ	22°08'53.48" पू
68	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	निसचिनता	86°29'50.86" उ	22°07'23.40" पू

69	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	पलासबनि	86°27'50.70" उ	22°04'31.54" पू
70	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	पनस्दीहा	86°31'00.02" उ	22°01'34.30" पू
71	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	पनदराबनधा	86°30'26.54" उ	22°05'37.80" पू
72	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	पनदुबदी	86°33'10.19" उ	22°02'46.14" पू
73	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	पिनदरगादीया	86°27'36.02" उ	22°06'37.47" पू
74	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	पुरूनापानी	86°33'43.27" उ	22°02'10.63" पू
75	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	पुरूनापानी	86°24'42.51" उ	22°00'27.05" पू
76	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	पुरूसोटाम्पुर	86°33'39.37" उ	22°03'43.74" पू
77	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	राजाबासा	86°28'19.81" उ	22°02'00.82" पू
78	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	रामहारीपुर	86°33'23.09" उ	22°01'01.12" पू
79	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	रांगामतिया	86°27'42.54" उ	22°05'07.93" पू
80	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	रयान	86°32'51.38" उ	22°02'29.72" पू
81	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	रेनगलबेदा	86°21'27.47" उ	22°01'53.73" पू
82	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	सधेइकाला	86°30'20.27" उ	22°02'41.74" पू
83	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	सालघाति	86°22'40.60" उ	22°02'05.50" पू
84	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	सन्नेदाम	86°27'38.97" उ	22°03'58.95" पू
85	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	सरबानिया	86°24'22.64" उ	22°03'40.78" पू
86	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	सिरासाही	86°29'42.41" उ	22°07'51.00" पू
87	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	सोरीसापाल	86°24'38.22" उ	22°03'13.26" पू
88	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	सुनापोसी	86°30'45.93" उ	22°02'08.70" पू
89	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	सुनधीसानी	86°28'57.27" उ	22°07'22.50" पू
90	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	तलबांध	86°20'16.22" उ	22°01'41.71" पू
91	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	तनगिअबासा	86°30'33.13" उ	22°03'24.63" पू
92	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	तिला	86°32'50.02" उ	22°01'46.08" पू
93	मयूरभंज	बनगिरिपोषि	उदाली	86°31'45.99" उ	22°03'48.83" पू
94	मयूरभंज	बरसही	बादासोरिसाभिला	86°39'02.51" उ	21°51'54.92" पू
95	मयूरभंज	बरसही	बेटनाटि	86°38'07.58" उ	21°50'28.04" पू
96	मयूरभंज	बरसही	छानदानछातुरी	86°36'13.99" उ	21°49'51.02" पू
97	मयूरभंज	बरसही	छेकमारा	86°37'20.96" उ	21°50'42.86" पू
98	मयूरभंज	बरसही	जदुनाथपुर	86°37'07.59" उ	21°50'08.80" पू
99	मयूरभंज	बरसही	मधुपुर	86°37'18.12" उ	21°49'38.93" पू
100	मयूरभंज	बरसही	पराटिवापुर	86°38'57.75" उ	21°51'27.90" पू
101	मयूरभंज	बरसही	पुरनाचादरापुर	86°37'53.85" उ	21°49'51.06" पू

102	मयूरभंज	बरसही	रउतराईपुर	86°37'30.37" उ	21°50'00.70" पू
103	मयूरभंज	विजतोला	धानतनगर	86°25'39.33" उ	22°17'35.91" पू
104	मयूरभंज	विजतोला	झलदीहा	86°18'53.39" उ	22°08'00.76" पू
105	मयूरभंज	विजतोला	कुनदुरूकोचा	86°22'33.13" उ	22°13'05.11" पू
106	मयूरभंज	विजतोला	पालासबानी	86°18'18.28" उ	22°08'21.19" पू
107	मयूरभंज	विजतोला	तिआकति पहाड़ी	86°25'01.77" उ	22°17'31.48" पू
108	मयूरभंज	बिसोई	अल्लापानी	86°14'46.36" उ	22°02'58.98" पू
109	मयूरभंज	बिसोई	अंधारझारी	86°14'08.52" उ	22°03'04.58" पू
110	मयूरभंज	बिसोई	अरजुनबिल्ला	86°16'09.86" उ	22°05'35.79" पू
111	मयूरभंज	बिसोई	असना	86°17'49.03" उ	22°06'41.15" पू
112	मयूरभंज	बिसोई	असानबानी	86°20'26.16" उ	22°07'10.61" पू
113	मयूरभंज	बिसोई	असानसिखार	86°22'48.96" उ	22°07'10.37" पू
114	मयूरभंज	बिसोई	बेद नलुआ	86°12'02.53" उ	22°02'29.96" पू
115	मयूरभंज	बिसोई	बधुनिया	86°25'13.48" उ	22°09'05.91" पू
116	मयूरभंज	बिसोई	बदजाम्बिल	86°16'02.73" उ	22°06'33.45" पू
117	मयूरभंज	बिसोई	बदमनादा	86°13'59.97" उ	22°05'05.30" पू
118	मयूरभंज	बिसोई	बदपुरूनापानी	86°13'31.81" उ	22°05'57.23" पू
119	मयूरभंज	बिसोई	बघहीअतानगर	86°12'53.22" उ	22°01'22.95" पू
120	मयूरभंज	बिसोई	बनेइकाला	86°12'09.50" उ	22°04'02.61" पू
121	मयूरभंज	बिसोई	बंकाती	86°11'11.63" उ	22°01'28.70" पू
122	मयूरभंज	बिसोई	बंकिदीही	86°18'07.79" उ	22°05'44.54" पू
123	मयूरभंज	बिसोई	बउतिबेदा	86°20'56.90" उ	22°08'46.30" पू
124	मयूरभंज	बिसोई	भातछातार	86°18'51.60" उ	22°06'51.35" पू
125	मयूरभंज	बिसोई	बोदेइजोडा	86°18'39.44" उ	22°07'34.76" पू
126	मयूरभंज	बिसोई	ब्राह्मणपासी	86°15'10.18" उ	22°06'13.87" पू
127	मयूरभंज	बिसोई	बुदामारा	86°12'56.92" उ	22°03'20.71" पू
128	मयूरभंज	बिसोई	बुधी खामारी	86°14'35.60" उ	22°03'57.97" पू
129	मयूरभंज	बिसोई	चादरीपाहादी	86°14'54.97" उ	22°02'20.44" पू
130	मयूरभंज	बिसोई	चटनी	86°20'54.64" उ	22°07'49.61" पू
131	मयूरभंज	बिसोई	चुअकानकार	86°26'12.60" उ	22°08'29.95" पू
132	मयूरभंज	बिसोई	दाबानकी	86°14'27.87" उ	22°06'18.45" पू
133	मयूरभंज	बिसोई	दानतुअनी	86°25'56.16" उ	22°07'52.33" पू
134	मयूरभंज	बिसोई	देओपाटा	86°27'52.66" उ	22°10'22.75" पू

135	मयूरभंज	बिसोई	धालाबेदा	86°10'22.11" उ	22°00'05.31" पू
136	मयूरभंज	बिसोई	धाना	86°24'11.20" उ	22°08'59.92" पू
137	मयूरभंज	बिसोई	धांगिदीमुटा	86°09'15.71" उ	22°00'50.06" पू
138	मयूरभंज	बिसोई	दुअरसुनि	86°27'09.95" उ	22°12'00.06" पू
139	मयूरभंज	बिसोई	दुधाकुंदी	86°27'26.55" उ	22°10'59.90" पू
140	मयूरभंज	बिसोई	दुमुरदीहा	86°10'07.15" उ	22°01'13.02" पू
141	मयूरभंज	बिसोई	एकताली	86°24'48.52" उ	22°06'50.34" पू
142	मयूरभंज	बिसोई	गरगदी	86°22'27.93" उ	22°12'39.91" पू
143	मयूरभंज	बिसोई	घाडाबांधा	86°23'34.71" उ	22°06'32.90" पू
144	मयूरभंज	बिसोई	गुंदुरिया	86°12'23.99" उ	22°04'44.01" पू
145	मयूरभंज	बिसोई	हटिछाद	86°25'56.20" उ	22°12'56.61" पू
146	मयूरभंज	बिसोई	हिजीली	86°19'23.38" उ	22°08'15.95" पू
147	मयूरभंज	बिसोई	जमबानी	86°15'26.06" उ	22°04'36.42" पू
148	मयूरभंज	बिसोई	जमुदीही	86°13'03.89" उ	22°04'56.82" पू
149	मयूरभंज	बिसोई	कदापानी	86°25'17.85" उ	22°10'16.67" पू
150	मयूरभंज	बिसोई	कदुअनी	86°22'12.89" उ	22°08'49.98" पू
151	मयूरभंज	बिसोई	कदुअनी	86°15'09.37" उ	22°06'51.38" पू
152	मयूरभंज	बिसोई	कसिपानी	86°18'05.15" उ	22°04'10.75" पू
153	मयूरभंज	बिसोई	कटास	86°23'26.11" उ	22°09'07.12" पू
154	मयूरभंज	बिसोई	केनदुमारा	86°18'52.08" उ	22°06'06.76" पू
155	मयूरभंज	बिसोई	केसाम	86°13'23.56" उ	22°02'25.20" पू
156	मयूरभंज	बिसोई	खादामबेदा	86°26'36.88" उ	22°10'08.32" पू
157	मयूरभंज	बिसोई	खादीअसुल	86°17'09.19" उ	22°05'56.94" पू
158	मयूरभंज	बिसोई	खेजुरीकाटास	86°22'53.82" उ	22°08'58.32" पू
159	मयूरभंज	बिसोई	किटाबेदा	86°26'20.89" उ	22°09'15.92" पू
160	मयूरभंज	बिसोई	कुइलीसुटा	86°16'58.20" उ	22°07'29.99" पू
161	मयूरभंज	बिसोई	कुलगिदीही	86°23'42.84" उ	22°07'14.42" पू
162	मयूरभंज	बिसोई	कुलीपसी	86°11'44.33" उ	22°03'42.02" पू
163	मयूरभंज	बिसोई	कुरकुटिया	86°10'27.02" उ	22°01'46.62" पू
164	मयूरभंज	बिसोई	महीस्कुदार	86°13'04.29" उ	22°05'30.20" पू
165	मयूरभंज	बिसोई	महुभांदार	86°21'47.62" उ	22°08'05.96" पू
166	मयूरभंज	बिसोई	मझहीगन	86°19'10.47" उ	22°07'26.40" पू
167	मयूरभंज	बिसोई	मखुना	86°25'23.64" उ	22°07'23.98" पू

168	मयूरभंज	बिसोई	मंगलपुर	86°20'06.90" उ	22°08'28.53" पू
169	मयूरभंज	बिसोई	मयरबेका	86°11'47.91" उ	22°01'06.24" पू
170	मयूरभंज	बिसोई	ननगालकाटापोखारिया	86°24'48.05" उ	22°08'11.49" पू
171	मयूरभंज	बिसोई	नुउदीही	86°19'44.08" उ	22°08'59.11" पू
172	मयूरभंज	बिसोई	पुअगन	86°11'08.26" उ	22°02'38.97" पू
173	मयूरभंज	बिसोई	ओसादाला	86°22'37.84" उ	22°06'11.60" पू
174	मयूरभंज	बिसोई	पालगोदा	86°17'50.43" उ	22°07'27.28" पू
175	मयूरभंज	बिसोई	पानखी	86°24'35.05" उ	22°07'29.81" पू
176	मयूरभंज	बिसोई	पाराभादी	86°21'32.36" उ	22°09'15.65" पू
177	मयूरभंज	बिसोई	पाथरपोदा	86°18'19.12" उ	22°06'25.74" पू
178	मयूरभंज	बिसोई	पाखारिया	86°15'05.61" उ	22°07'22.97" पू
179	मयूरभंज	बिसोई	पुरूनाबालिचुअ	86°21'38.90" उ	22°06'50.53" पू
180	मयूरभंज	बिसोई	राधानगर	86°13'27.10" उ	22°03'52.96" पू
181	मयूरभंज	बिसोई	राईकादकाचा	86°17'04.76" उ	22°05'10.99" पू
182	मयूरभंज	बिसोई	राइकादकाचाहील्ल	86°17'58.14" उ	22°04'59.62" पू
183	मयूरभंज	बिसोई	राजबासा	86°28'22.79" उ	22°11'04.56" पू
184	मयूरभंज	बिसोई	रालीअबिनधा	86°14'33.71" उ	22°05'34.80" पू
185	मयूरभंज	बिसोई	रेनगालबेदा	86°14'56.75" उ	22°04'44.44" पू
186	मयूरभंज	बिसोई	रूगुदीदीही	86°19'53.63" उ	22°06'39.22" पू
187	मयूरभंज	बिसोई	सान नलुअ	86°12'20.97" उ	22°03'08.82" पू
188	मयूरभंज	बिसोई	सानबालिचुया	86°27'43.17" उ	22°09'31.18" पू
189	मयूरभंज	बिसोई	सानजामबिल्ला	86°10'56.91" उ	22°03'26.94" पू
190	मयूरभंज	बिसोई	सानमानादा	86°13'42.68" उ	22°04'29.19" पू
191	मयूरभंज	बिसोई	सनमुरूनापानी	86°16'09.97" उ	22°07'24.07" पू
192	मयूरभंज	बिसोई	सनरानगमातिया	86°20'35.51" उ	22°05'24.34" पू
193	मयूरभंज	बिसोई	सुनापोसी	86°19'59.20" उ	22°07'38.23" पू
194	मयूरभंज	बिसोई	तलाकबदी	86°19'31.09" उ	22°05'46.21" पू
195	मयूरभंज	बिसोई	तालापती	86°16'52.11" उ	22°06'48.76" पू
196	मयूरभंज	बिसोई	तमल बानधा	86°12'29.02" उ	22°01'49.13" पू
197	मयूरभंज	बिसोई	तमबाझारी	86°15'38.27" उ	22°05'04.68" पू
198	मयूरभंज	बिसोई	तराना	86°28'06.82" उ	22°11'56.75" पू
199	मयूरभंज	बिसोई	तेलेइघुतु	86°11'46.42" उ	22°01'46.76" पू
200	मयूरभंज	बिसोई	थुलुकचातानी	86°21'09.55" उ	22°09'15.67" पू

201	मयूरभंज	जशिपुर	असानाबानी	86°18'01.17" उ	21°56'31.49" पू
202	मयूरभंज	जशिपुर	असानाबानी	86°06'49.05" उ	21°54'41.39" पू
203	मयूरभंज	जशिपुर	अस्ताकुअनर	86°22'23.19" उ	21°51'55.83" पू
204	मयूरभंज	जशिपुर	अथारादेउला	86°20'07.84" उ	21°51'50.46" पू
205	मयूरभंज	जशिपुर	बेदाझील्ली	86°11'16.63" उ	21°58'02.79" पू
206	मयूरभंज	जशिपुर	बदाकासिरा	86°16'12.52" उ	21°49'04.40" पू
207	मयूरभंज	जशिपुर	बदासोकि	86°18'26.45" उ	21°54'41.42" पू
208	मयूरभंज	जशिपुर	बदमकाबदी	86°25'34.21" उ	21°51'28.24" पू
209	मयूरभंज	जशिपुर	बदसिअसिनाइ	86°10'00.46" उ	21°59'38.61" पू
210	मयूरभंज	जशिपुर	बदसोले	86°06'08.00" उ	21°57'26.45" पू
211	मयूरभंज	जशिपुर	बकाला	86°04'35.00" उ	21°54'08.64" पू
212	मयूरभंज	जशिपुर	बकुआ	86°22'00.84" उ	21°49'47.64" पू
213	मयूरभंज	जशिपुर	बलरामपुर	86°23'30.86" उ	21°52'45.09" पू
214	मयूरभंज	जशिपुर	बलिखाल	86°27'11.48" उ	21°52'10.29" पू
215	मयूरभंज	जशिपुर	बंदीराबासा	86°19'30.35" उ	21°53'55.76" पू
216	मयूरभंज	जशिपुर	बंपानदुगंदी	86°08'05.52" उ	22°01'27.31" पू
217	मयूरभंज	जशिपुर	बरगदिया	86°05'43.49" उ	21°51'16.97" पू
218	मयूरभंज	जशिपुर	बरांगा	86°08'30.81" उ	21°55'30.40" पू
219	मयूरभंज	जशिपुर	बेरेइपानी	86°21'17.29" उ	21°56'49.37" पू
220	मयूरभंज	जशिपुर	बारगिपुत	86°07'57.11" उ	21°59'44.04" पू
221	मयूरभंज	जशिपुर	बारिगन	86°15'30.78" उ	21°49'23.95" पू
222	मयूरभंज	जशिपुर	बरसिया	86°20'31.51" उ	21°56'44.42" पू
223	मयूरभंज	जशिपुर	बरसिया	86°19'31.10" उ	21°56'30.15" पू
224	मयूरभंज	जशिपुर	बसनतपुर	86°06'31.59" उ	21°55'17.28" पू
225	मयूरभंज	जशिपुर	बेगुनिया	86°08'44.80" उ	21°59'26.61" पू
226	मयूरभंज	जशिपुर	भादुसोले	86°13'06.89" उ	21°56'55.89" पू
227	मयूरभंज	जशिपुर	भराडाचुआ	86°17'00.23" उ	21°48'53.70" पू
228	मयूरभंज	जशिपुर	बिलापाक	86°15'01.20" उ	21°53'26.99" पू
229	मयूरभंज	जशिपुर	बरुंदेईपोसी	86°12'36.77" उ	21°57'24.44" पू
230	मयूरभंज	जशिपुर	बुधाबालांगा	86°24'04.54" उ	21°49'18.82" पू
231	मयूरभंज	जशिपुर	चादरीपाहाडि	86°09'17.69" उ	21°57'21.70" पू
232	मयूरभंज	जशिपुर	चाकसुअंपाल	86°07'06.39" उ	21°55'50.38" पू
233	मयूरभंज	जशिपुर	चाकुंदाकचा	86°19'59.44" उ	21°57'12.99" पू

234	मयूरभंज	जशिपुर	चांदीखामन	86°15'56.34" उ	21°51'33.13" पू
235	मयूरभंज	जशिपुर	छेइलिगोधुलि	86°09'21.51" उ	22°00'10.02" पू
236	मयूरभंज	जशिपुर	डालडाली	86°16'16.42" उ	21°59'51.88" पू
237	मयूरभंज	जशिपुर	धालाबानी	86°08'56.65" उ	21°56'17.69" पू
238	मयूरभंज	जशिपुर	धुदुकु	86°05'02.58" उ	21°54'30.96" पू
239	मयूरभंज	जशिपुर	धुदुरूचाम्पा	86°27'03.51" उ	21°50'18.33" पू
240	मयूरभंज	जशिपुर	दुरदुरा	86°08'57.15" उ	21°58'44.55" पू
241	मयूरभंज	जशिपुर	इकातालि	86°05'54.72" उ	21°54'32.48" पू
242	मयूरभंज	जशिपुर	फुलाबादीया	86°20'04.31" उ	21°53'08.68" पू
243	मयूरभंज	जशिपुर	घानीअपोसी	86°07'21.36" उ	21°54'49.10" पू
244	मयूरभंज	जशिपुर	गोइली	86°05'37.27" उ	21°55'50.80" पू
245	मयूरभंज	जशिपुर	गोपिनाथपुर	86°26'46.32" उ	21°51'02.27" पू
246	मयूरभंज	जशिपुर	गुदगुदिया	86°14'58.70" उ	21°51'48.18" पू
247	मयूरभंज	जशिपुर	गुरानदिया	86°22'53.82" उ	21°50'27.75" पू
248	मयूरभंज	जशिपुर	हलादिया	86°13'58.54" उ	21°59'14.83" पू
249	मयूरभंज	जशिपुर	हलादिया	86°20'00.53" उ	21°56'33.78" पू
250	मयूरभंज	जशिपुर	हंदिपुहान	86°07'52.85" उ	21°58'36.54" पू
251	मयूरभंज	जशिपुर	हतिमुंदी	86°13'37.71" उ	21°57'27.27" पू
252	मयूरभंज	जशिपुर	हिल्बलोक	86°26'02.84" उ	21°52'31.84" पू
253	मयूरभंज	जशिपुर	जाझादीही	86°20'31.65" उ	21°52'20.56" पू
254	मयूरभंज	जशिपुर	जमुअनि	86°13'09.90" उ	21°57'15.36" पू
255	मयूरभंज	जशिपुर	जुरूदा	86°24'54.54" उ	21°54'12.03" पू
256	मयूरभंज	जशिपुर	केलेइतुम्बा	86°06'02.53" उ	21°52'08.40" पू
257	मयूरभंज	जशिपुर	कालिअनि	86°09'31.58" उ	21°54'58.13" पू
258	मयूरभंज	जशिपुर	कालिकापरासद	86°11'34.12" उ	21°54'40.40" पू
259	मयूरभंज	जशिपुर	कंचिकिना	86°06'27.75" उ	21°53'10.77" पू
260	मयूरभंज	जशिपुर	कपानदा	86°07'09.11" उ	21°55'39.05" पू
261	मयूरभंज	जशिपुर	कपतिरा	86°06'59.55" उ	21°56'44.37" पू
262	मयूरभंज	जशिपुर	कसिपाल	86°07'41.39" उ	21°57'47.35" पू
263	मयूरभंज	जशिपुर	खेदीअदुंगुरी	86°16'01.68" उ	21°51'05.63" पू
264	मयूरभंज	जशिपुर	खेझुरिया	86°18'16.10" उ	21°48'22.75" पू
265	मयूरभंज	जशिपुर	किअझारी	86°08'04.33" उ	21°49'58.80" पू
266	मयूरभंज	जशिपुर	कोलाझारी	86°19'20.32" उ	21°57'00.34" पू

267	मयूरभंज	जशपुर	कोल्हा	86°16'42.41" उ	21°53'46.37" पू
268	मयूरभंज	जशपुर	कुअनरीबिल	86°18'25.41" उ	21°50'59.22" पू
269	मयूरभंज	जशपुर	कुकुरभुका	86°24'51.76" उ	21°53'07.90" पू
270	मयूरभंज	जशपुर	कुमारी	86°15'04.17" उ	21°51'19.53" पू
271	मयूरभंज	जशपुर	कुमुदाबादी	86°06'31.40" उ	21°53'54.57" पू
272	मयूरभंज	जशपुर	कुनदाबिल	86°16'33.29" उ	21°49'24.21" पू
273	मयूरभंज	जशपुर	कुनदागाड	86°13'34.53" उ	21°56'26.06" पू
274	मयूरभंज	जशपुर	कुसुमि	86°15'32.23" उ	21°50'16.09" पू
275	मयूरभंज	जशपुर	लेम्बुझारान	86°21'10.98" उ	21°51'16.62" पू
276	मयूरभंज	जशपुर	मदनमोहनपुर	86°11'58.74" उ	21°57'38.88" पू
277	मयूरभंज	जशपुर	मकाबाडि	86°26'13.22" उ	21°51'44.91" पू
278	मयूरभंज	जशपुर	मतिअघर	86°06'18.40" उ	21°56'11.59" पू
279	मयूरभंज	जशपुर	नान्ना	86°23'57.65" उ	21°54'04.51" पू
280	मयूरभंज	जशपुर	नान्गाल्सिला	86°05'20.10" उ	21°52'50.98" पू
281	मयूरभंज	जशपुर	नेतराघोसरा	86°14'50.17" उ	21°52'26.22" पू
282	मयूरभंज	जशपुर	निखिरदा	86°25'51.12" उ	21°53'23.11" पू
283	मयूरभंज	जशपुर	नुहामालिया	86°07'53.77" उ	22°00'43.65" पू
284	मयूरभंज	जशपुर	नुनिअगोदा	86°18'45.82" उ	21°55'50.16" पू
285	मयूरभंज	जशपुर	ओलकुदार	86°10'16.24" उ	21°54'39.05" पू
286	मयूरभंज	जशपुर	पलगोदा	86°13'03.15" उ	21°56'25.39" पू
287	मयूरभंज	जशपुर	पंचुदाहान	86°27'02.11" उ	21°52'56.26" पू
288	मयूरभंज	जशपुर	पोडाघर	86°10'33.93" उ	21°57'44.77" पू
289	मयूरभंज	जशपुर	पोडाघर	86°08'39.36" उ	21°54'53.07" पू
290	मयूरभंज	जशपुर	राजपाल	86°14'43.22" उ	21°55'49.95" पू
291	मयूरभंज	जशपुर	रामचंद्रपुर	86°07'55.86" उ	22°01'13.77" पू
292	मयूरभंज	जशपुर	रउताल	86°17'58.51" उ	21°54'32.44" पू
293	मयूरभंज	जशपुर	सहारपात	86°15'18.92" उ	21°50'48.53" पू
294	मयूरभंज	जशपुर	सनासोकि	86°18'18.67" उ	21°55'17.98" पू
295	मयूरभंज	जशपुर	संझील्ली	86°13'24.68" उ	21°57'35.58" पू
296	मयूरभंज	जशपुर	संकेसिरा	86°15'50.92" उ	21°49'54.48" पू
297	मयूरभंज	जशपुर	संनसिअलीनाई	86°10'29.10" उ	21°59'04.47" पू
298	मयूरभंज	जशपुर	सपाचिरा	86°09'27.46" उ	21°55'22.17" पू
299	मयूरभंज	जशपुर	सरूदा	86°24'05.80" उ	21°50'59.20" पू

300	मयूरभंज	जशपुर	सिमिलिपाल	86°23'24.01" उ	21°51'40.33" पू
301	मयूरभंज	जशपुर	सिंगरपुर	86°05'06.46" उ	21°55'47.19" पू
302	मयूरभंज	जशपुर	सुअनपाल	86°08'00.34" उ	21°56'43.51" पू
303	मयूरभंज	जशपुर	तमकसिली	86°11'28.54" उ	21°53'42.89" पू
304	मयूरभंज	जशपुर	थकुरगोदा	86°10'45.35" उ	21°54'58.41" पू
305	मयूरभंज	जशपुर	तिलाबदी	86°07'30.96" उ	21°55'00.55" पू
306	मयूरभंज	जशपुर	तिनगिरिअनी	86°12'20.22" उ	21°56'52.75" पू
307	मयूरभंज	जशपुर	तुलासिबानि	86°09'26.11" उ	21°58'07.81" पू
308	मयूरभंज	जशपुर	उत्तरांसा	86°10'56.57" उ	21°54'26.27" पू
309	मयूरभंज	कपतिपाडा	बदाजुंपाल	86°26'12.69" उ	21°33'55.45" पू
310	मयूरभंज	कपतिपाडा	भांदारिपाल	86°26'42.68" उ	21°32'50.45" पू
311	मयूरभंज	कपतिपाडा	चक्रधारपुर	86°28'39.44" उ	21°35'43.72" पू
312	मयूरभंज	कपतिपाडा	छुनुअ	86°27'09.50" उ	21°31'49.68" पू
313	मयूरभंज	कपतिपाडा	देबाला	86°25'47.11" उ	21°31'40.24" पू
314	मयूरभंज	कपतिपाडा	गंदीदार	86°25'04.41" उ	21°32'06.63" पू
315	मयूरभंज	कपतिपाडा	पहाडी खंड सं.-171	86°27'59.68" उ	21°33'49.94" पू
316	मयूरभंज	कपतिपाडा	पहाडी खंड सं.--173	86°27'34.78" उ	21°32'36.33" पू
317	मयूरभंज	कपतिपाडा	पहाडी खंड सं.--151	86°25'52.04" उ	21°34'31.38" पू
318	मयूरभंज	कपतिपाडा	जयतिपत्ता सामिल जमुदीहा	86°27'58.07" उ	21°34'50.08" पू
319	मयूरभंज	कपतिपाडा	कदमसुल	86°25'09.29" उ	21°32'39.97" पू
320	मयूरभंज	कपतिपाडा	कंतागादी	86°26'58.08" उ	21°32'14.10" पू
321	मयूरभंज	कपतिपाडा	कंतिअलि	86°25'32.01" उ	21°34'03.02" पू
322	मयूरभंज	कपतिपाडा	कोलिओलास्सामिल पगडादीहा	86°25'42.26" उ	21°32'50.69" पू
323	मयूरभंज	कपतिपाडा	नछीपुर	86°25'17.39" उ	21°33'31.77" पू
324	मयूरभंज	कपतिपाडा	नरसिंगबेदा	86°28'52.16" उ	21°33'15.36" पू
325	मयूरभंज	कपतिपाडा	नौआसाही	86°26'12.27" उ	21°32'11.16" पू
326	मयूरभंज	कपतिपाडा	नुहामालिआ	86°27'04.27" उ	21°33'54.51" पू
327	मयूरभंज	कपतिपाडा	पोडादिहा	86°26'26.21" उ	21°33'22.88" पू
328	मयूरभंज	कपतिपाडा	पोटालदीहा	86°29'47.25" उ	21°34'18.07" पू
329	मयूरभंज	कपतिपाडा	सदानंदपुर	86°29'18.09" उ	21°35'47.57" पू
330	मयूरभंज	कपतिपाडा	संजुंपाल	86°27'23.70" उ	21°35'27.52" पू
331	मयूरभंज	कपतिपाडा	सरबनघाटी	86°29'01.04" उ	21°34'09.04" पू

332	मयूरभंज	कपतिपाडा	सरबनघाटी पहाड़ी खंड सं- 172	86°28'11.53" उ	21°32'56.49" पू
333	मयूरभंज	कपतिपाडा	सुखौपाटा	86°18'02.30" उ	21°22'45.92" पू
334	मयूरभंज	कपतिपाडा	तालापाडियासमील्ल्जीयातीका र	86°26'56.19" उ	21°33'12.47" पू
335	मयूरभंज	करंजिया	अन्लाकाटा	86°09'37.60" उ	21°46'56.84" पू
336	मयूरभंज	करंजिया	अंतासाही	86°04'39.80" उ	21°50'46.20" पू
337	मयूरभंज	करंजिया	बडगंन	86°03'49.46" उ	21°51'07.25" पू
338	मयूरभंज	करंजिया	बडबराहकमुदा	86°07'04.39" उ	21°48'04.36" पू
339	मयूरभंज	करंजिया	बद्रारामचंद्रपुर	86°07'25.11" उ	21°47'18.93" पू
340	मयूरभंज	करंजिया	बघलाटा	86°05'26.10" उ	21°43'55.75" पू
341	मयूरभंज	करंजिया	बजेनिसिला	86°03'43.85" उ	21°43'25.54" पू
342	मयूरभंज	करंजिया	बालिभाल	86°04'25.79" उ	21°43'44.01" पू
343	मयूरभंज	करंजिया	बलिपोसी	86°05'53.93" उ	21°42'38.16" पू
344	मयूरभंज	करंजिया	बतागउदागंन	86°03'48.29" उ	21°52'22.95" पू
345	मयूरभंज	करंजिया	बतापलासा	86°03'33.56" उ	21°49'11.15" पू
346	मयूरभंज	करंजिया	बतातेंसिरा	86°04'23.91" उ	21°52'56.55" पू
347	मयूरभंज	करंजिया	भालुघार	86°03'25.48" उ	21°44'01.24" पू
348	मयूरभंज	करंजिया	बिसिपुर	86°07'11.43" उ	21°42'19.04" पू
349	मयूरभंज	करंजिया	बुधीगन	86°10'32.21" उ	21°45'32.68" पू
350	मयूरभंज	करंजिया	बुरूदीही	86°11'12.20" उ	21°47'09.08" पू
351	मयूरभंज	करंजिया	छेलियापोसि	86°03'32.31" उ	21°46'31.91" पू
352	मयूरभंज	करंजिया	धातिकिबेदा	86°04'48.56" उ	21°40'02.69" पू
353	मयूरभंज	करंजिया	डिविग्रह	86°05'56.28" उ	21°48'07.07" पू
354	मयूरभंज	करंजिया	दुहीयानि	86°09'07.17" उ	21°47'24.78" पू
355	मयूरभंज	करंजिया	गपालपुर	86°02'59.32" उ	21°44'08.01" पू
356	मयूरभंज	करंजिया	गौदगंन	86°04'24.20" उ	21°46'37.11" पू
357	मयूरभंज	करंजिया	गोदीदीहा	86°02'22.38" उ	21°47'49.80" पू
358	मयूरभंज	करंजिया	हटीबारी	86°05'16.71" उ	21°48'35.79" पू
359	मयूरभंज	करंजिया	हतिसाल्वेदा	86°04'38.72" उ	21°44'31.78" पू
360	मयूरभंज	करंजिया	झाजादा	86°10'04.49" उ	21°48'26.59" पू
361	मयूरभंज	करंजिया	जमुनालिया	86°05'04.68" उ	21°43'02.62" पू
362	मयूरभंज	करंजिया	जरासाही	86°04'48.17" उ	21°45'09.14" पू

363	मयूरभंज	करंजिया	झुमककुदार	86°02'28.95" उ	21°46'45.84" पू
364	मयूरभंज	करंजिया	कदालीबादी	86°07'49.28" उ	21°47'41.92" पू
365	मयूरभंज	करंजिया	कदामादक	86°03'41.59" उ	21°50'01.32" पू
366	मयूरभंज	करंजिया	कालाकादा	86°03'53.23" उ	21°42'44.82" पू
367	मयूरभंज	करंजिया	कपंदारा	86°03'46.95" उ	21°45'22.97" पू
368	मयूरभंज	करंजिया	करादिया	86°03'19.99" उ	21°53'03.20" पू
369	मयूरभंज	करंजिया	केदुमुंदी	86°06'48.27" उ	21°40'43.01" पू
370	मयूरभंज	करंजिया	केंझारा	86°04'05.85" उ	21°42'10.88" पू
371	मयूरभंज	करंजिया	खदीकुदर	86°03'01.28" उ	21°47'15.12" पू
372	मयूरभंज	करंजिया	खालपाडा	86°09'32.11" उ	21°46'17.48" पू
373	मयूरभंज	करंजिया	खांदीयादार	86°05'23.91" उ	21°51'01.96" पू
374	मयूरभंज	करंजिया	कोलीपोसी	86°03'10.63" उ	21°45'03.10" पू
375	मयूरभंज	करंजिया	कुंजिया	86°02'02.13" उ	21°49'47.70" पू
376	मयूरभंज	करंजिया	कुसापाडा	86°04'21.39" उ	21°45'48.78" पू
377	मयूरभंज	करंजिया	लक्समिपोसि	86°11'07.13" उ	21°47'41.29" पू
378	मयूरभंज	करंजिया	मलहारपाडा	86°03'06.91" उ	21°52'04.58" पू
379	मयूरभंज	करंजिया	मिलुदीही	86°05'35.29" उ	21°45'55.19" पू
380	मयूरभंज	करंजिया	मिरिगिनांदी	86°04'02.08" उ	21°47'46.31" पू
381	मयूरभंज	करंजिया	नधागादिया	86°02'50.65" उ	21°51'38.56" पू
382	मयूरभंज	करंजिया	नकुदा	86°02'40.60" उ	21°50'50.26" पू
383	मयूरभंज	करंजिया	नौगान	86°04'36.66" उ	21°53'38.69" पू
384	मयूरभंज	करंजिया	पहाडमदाक	86°04'40.66" उ	21°49'51.58" पू
385	मयूरभंज	करंजिया	पहाडपुर	86°10'26.18" उ	21°47'58.52" पू
386	मयूरभंज	करंजिया	पनासपाल	86°03'10.63" उ	21°48'08.77" पू
387	मयूरभंज	करंजिया	पतबिल	86°05'33.28" उ	21°41'52.25" पू
388	मयूरभंज	करंजिया	पतुलिदीहा	86°04'28.53" उ	21°48'47.03" पू
389	मयूरभंज	करंजिया	पौदिया	86°05'15.45" उ	21°47'08.80" पू
390	मयूरभंज	करंजिया	पुरूनापानी	86°06'01.84" उ	21°48'49.17" पू
391	मयूरभंज	करंजिया	रदांग	86°02'38.27" उ	21°46'04.71" पू
392	मयूरभंज	करंजिया	राईतालिया	86°03'54.68" उ	21°53'12.28" पू
393	मयूरभंज	करंजिया	रामजोडी	86°11'37.32" उ	21°47'37.91" पू
394	मयूरभंज	करंजिया	रांगामातिया	86°08'38.53" उ	21°46'56.11" पू
395	मयूरभंज	करंजिया	रानीभोलोरोफकलोदर	86°08'57.84" उ	21°47'48.76" पू

396	मयूरभंज	करंजिया	रानीपत	86°03'50.04" उ	21°50'43.67" पू
397	मयूरभंज	करंजिया	रेनगालबेदा	86°05'28.94" उ	21°40'41.30" पू
398	मयूरभंज	करंजिया	सलरापाडा	86°02'37.92" उ	21°48'54.45" पू
399	मयूरभंज	करंजिया	सनगांसासां	86°04'01.07" उ	21°51'37.34" पू
400	मयूरभंज	करंजिया	संबारहकमुदा	86°06'49.44" उ	21°48'25.74" पू
401	मयूरभंज	करंजिया	संरामचंद्रपुर	86°07'41.36" उ	21°46'10.12" पू
402	मयूरभंज	करंजिया	सरधा	86°04'51.24" उ	21°52'05.12" पू
403	मयूरभंज	करंजिया	सैलिनाई	86°03'02.84" उ	21°50'07.93" पू
404	मयूरभंज	करंजिया	सुदीअम	86°05'21.06" उ	21°45'17.36" पू
405	मयूरभंज	करंजिया	सुनापोसी	86°05'47.14" उ	21°44'45.38" पू
406	मयूरभंज	करंजिया	नधीकुदार	86°03'31.63" उ	21°47'02.93" पू
407	मयूरभंज	करंजिया	स्यामचंद्रपुर	86°07'06.98" उ	21°46'48.14" पू
408	मयूरभंज	करंजिया	ठाकुरामपटना	86°06'20.84" उ	21°47'18.11" पू
409	मयूरभंज	करंजिया	ठाकुरझरान	86°05'58.88" उ	21°43'33.03" पू
410	मयूरभंज	खुंता	अग्निपुर	86°35'30.42" उ	21°49'12.11" पू
411	मयूरभंज	खुंता	अंदीयातिकिरा	86°32'41.92" उ	21°43'34.93" पू
412	मयूरभंज	खुंता	बदाओलिया	86°33'37.80" उ	21°44'05.24" पू
413	मयूरभंज	खुंता	बदममुदिया	86°33'36.42" उ	21°42'50.60" पू
414	मयूरभंज	खुंता	बाहालदा	86°32'53.92" उ	21°47'00.66" पू
415	मयूरभंज	खुंता	बंगरा	86°35'56.64" उ	21°47'05.49" पू
416	मयूरभंज	खुंता	बानियाबासा	86°32'11.92" उ	21°45'18.30" पू
417	मयूरभंज	खुंता	बरूदीही	86°33'05.78" उ	21°43'14.87" पू
418	मयूरभंज	खुंता	भोलागादिया	86°34'14.40" उ	21°43'43.51" पू
419	मयूरभंज	खुंता	भुपाड	86°35'24.50" उ	21°46'32.05" पू
420	मयूरभंज	खुंता	भुरूदुचम्पा	86°34'56.04" उ	21°46'00.71" पू
421	मयूरभंज	खुंता	बिप्राचारांपुर	86°32'13.51" उ	21°43'32.77" पू
422	मयूरभंज	खुंता	चापालदीही	86°33'32.42" उ	21°45'13.54" पू
423	मयूरभंज	खुंता	दबक	86°32'25.98" उ	21°45'48.15" पू
424	मयूरभंज	खुंता	देंगम	86°32'26.91" उ	21°45'05.26" पू
425	मयूरभंज	खुंता	गेमेइघाटी	86°34'21.90" उ	21°47'40.89" पू
426	मयूरभंज	खुंता	गिरिशचंद्रपुर	86°35'56.46" उ	21°47'43.19" पू
427	मयूरभंज	खुंता	गिरिशचंद्रपुर	86°34'09.23" उ	21°46'25.52" पू
428	मयूरभंज	खुंता	गोविन्दपुर	86°33'05.41" उ	21°42'16.69" पू

429	मयूरभंज	खुंता	गोपालपुर	86°32'45.79" उ	21°44'24.32" पू
430	मयूरभंज	खुंता	हीनजाल्मदिया	86°34'21.55" उ	21°45'38.05" पू
431	मयूरभंज	खुंता	झदीदार	86°32'02.09" उ	21°44'30.96" पू
432	मयूरभंज	खुंता	झरिया	86°34'43.78" उ	21°45'00.75" पू
433	मयूरभंज	खुंता	झुरादीही	86°33'22.91" उ	21°47'36.45" पू
434	मयूरभंज	खुंता	कन्तामारा	86°36'10.20" उ	21°48'23.28" पू
435	मयूरभंज	खुंता	केंदुगादी	86°37'14.67" उ	21°48'58.42" पू
436	मयूरभंज	खुंता	कुसागादिया	86°37'21.21" उ	21°48'33.09" पू
437	मयूरभंज	खुंता	कुसुमघाटि	86°34'08.44" उ	21°45'05.93" पू
438	मयूरभंज	खुंता	लक्सनासानी	86°37'06.59" उ	21°48'18.50" पू
439	मयूरभंज	खुंता	महालिबासा	86°36'02.48" उ	21°48'53.87" पू
440	मयूरभंज	खुंता	महुलदीही	86°32'12.06" उ	21°44'10.20" पू
441	मयूरभंज	खुंता	नौगांन	86°33'05.76" उ	21°45'01.29" पू
442	मयूरभंज	खुंता	राईदीही	86°33'00.40" उ	21°42'48.68" पू
443	मयूरभंज	खुंता	राईगादी	86°36'55.56" उ	21°47'45.70" पू
444	मयूरभंज	खुंता	रंगमातिया	86°32'47.61" उ	21°46'15.67" पू
445	मयूरभंज	खुंता	सलबानी	86°36'43.48" उ	21°47'32.93" पू
446	मयूरभंज	खुंता	सनाओलिया	86°33'19.02" उ	21°44'23.25" पू
447	मयूरभंज	खुंता	संसतसोल	86°33'21.39" उ	21°41'52.03" पू
448	मयूरभंज	खुंता	सपंचुअ	86°34'50.84" उ	21°47'37.58" पू
449	मयूरभंज	खुंता	सिरिश्चन्द्रपुर	86°36'02.13" उ	21°48'05.02" पू
450	मयूरभंज	खुंता	श्रीरामपुर	86°32'19.48" उ	21°44'47.95" पू
451	मयूरभंज	खुंता	सुबरनामंजारी	86°33'53.45" उ	21°48'10.82" पू
452	मयूरभंज	खुंता	सुंपोखारी	86°34'50.49" उ	21°48'29.08" पू
453	मयूरभंज	खुंता	ताम्बगढी	86°36'52.44" उ	21°48'06.12" पू
454	मयूरभंज	खुंता	तिअकति	86°35'13.60" उ	21°47'15.12" पू
455	मयूरभंज	कुलिअना	बइदीकोथा	86°34'58.70" उ	22°03'54.63" पू
456	मयूरभंज	कुलिअना	बलिअदाहान	86°38'08.12" उ	22°01'21.57" पू
457	मयूरभंज	कुलिअना	बारकुली	86°39'10.40" उ	21°59'56.23" पू
458	मयूरभंज	कुलिअना	बरुदीही	86°35'21.69" उ	22°04'25.26" पू
459	मयूरभंज	कुलिअना	भादुअबेदा	86°37'03.23" उ	22°03'18.94" पू
460	मयूरभंज	कुलिअना	भादुअनुगन	86°36'31.24" उ	22°03'01.32" पू
461	मयूरभंज	कुलिअना	बिनझाबानी	86°36'43.16" उ	22°03'59.64" पू

462	मयूरभंज	कुलिअना	दनतामुसाल	86°37'53.00" उ	22°02'51.73" पू
463	मयूरभंज	कुलिअना	गेंदापोखरी	86°35'22.99" उ	22°01'57.92" पू
464	मयूरभंज	कुलिअना	गिधिबास	86°36'48.06" उ	22°02'32.36" पू
465	मयूरभंज	कुलिअना	गोविन्दपुर	86°38'52.56" उ	22°00'20.71" पू
466	मयूरभंज	कुलिअना	जगन्नाथपुर	86°34'57.03" उ	22°02'32.59" पू
467	मयूरभंज	कुलिअना	जमदा	86°38'45.30" उ	22°00'47.50" पू
468	मयूरभंज	कुलिअना	झिलिदम	86°34'52.17" उ	22°03'17.86" पू
469	मयूरभंज	कुलिअना	कमरपाल	86°38'03.47" उ	22°02'05.95" पू
470	मयूरभंज	कुलिअना	कनीअबुदा	86°38'46.92" उ	21°59'57.62" पू
471	मयूरभंज	कुलिअना	कथपाल	86°38'19.99" उ	22°01'03.43" पू
472	मयूरभंज	कुलिअना	मुन्धाबानी	86°35'27.03" उ	22°03'03.46" पू
473	मयूरभंज	कुलिअना	पाईकलीसरदीहा	86°39'09.39" उ	22°00'16.77" पू
474	मयूरभंज	कुलिअना	पथरघेरा	86°36'06.38" उ	22°02'42.03" पू
475	मयूरभंज	कुलिअना	पतिअसिमिलि	86°38'30.94" उ	22°01'05.90" पू
476	मयूरभंज	कुलिअना	पोखारिया	86°37'09.75" उ	22°01'59.69" पू
477	मयूरभंज	कुलिअना	सालबानी	86°39'01.71" उ	22°00'12.80" पू
478	मयूरभंज	कुलिअना	सानपालसिया	86°38'48.98" उ	22°00'27.49" पू
479	मयूरभंज	कुलिअना	श्रीचंदनपुर	86°35'54.88" उ	22°03'57.60" पू
480	मयूरभंज	कुलिअना	सुंतथिपाल	86°39'07.80" उ	21°59'46.21" पू
481	मयूरभंज	कुलिअना	तिरिनगिदीही	86°37'17.54" उ	22°02'45.98" पू
482	मयूरभंज	शमखुंटा	अकारसिला	86°37'59.55" उ	22°00'45.23" पू
483	मयूरभंज	शमखुंटा	अलुवानि	86°35'56.35" उ	22°00'20.98" पू
484	मयूरभंज	शमखुंटा	अम्बादालि	86°37'42.90" उ	21°58'40.84" पू
485	मयूरभंज	शमखुंटा	असांबानी	86°36'57.37" उ	21°59'03.82" पू
486	मयूरभंज	शमखुंटा	बदकुचिअमारा	86°38'42.42" उ	21°57'49.24" पू
487	मयूरभंज	शमखुंटा	बदकुलदीहा	86°38'43.34" उ	21°57'12.20" पू
488	मयूरभंज	शमखुंटा	बदसोल	86°38'26.13" उ	21°55'00.47" पू
489	मयूरभंज	शमखुंटा	बलिदीहा	86°37'19.55" उ	21°57'44.43" पू
490	मयूरभंज	शमखुंटा	बेसेरपानी	86°36'15.18" उ	21°52'14.43" पू
491	मयूरभंज	शमखुंटा	भालुबासा	86°37'27.22" उ	22°01'33.38" पू
492	मयूरभंज	शमखुंटा	भालुकि	86°37'51.63" उ	21°59'23.24" पू
493	मयूरभंज	शमखुंटा	भालागादिया	86°38'18.47" उ	21°56'45.24" पू
494	मयूरभंज	शमखुंटा	भुंदपाल	86°36'36.37" उ	21°57'18.44" पू

495	मयूरभंज	शमखुंटा	बिस्हनुपाल	86°38'18.44" उ	22°00'23.91" पू
496	मयूरभंज	शमखुंटा	चादकाटा	86°37'15.54" उ	22°00'18.16" पू
497	मयूरभंज	शमखुंटा	चाहृतिया बासंग बानी	86°39'34.92" उ	21°54'55.22" पू
498	मयूरभंज	शमखुंटा	चम्पागढ	86°33'57.12" उ	21°57'03.83" पू
499	मयूरभंज	शमखुंटा	छानबाडिया	86°38'07.12" उ	22°00'29.34" पू
500	मयूरभंज	शमखुंटा	चंदनपुर	86°39'22.61" उ	21°53'58.78" पू
501	मयूरभंज	शमखुंटा	दानमारा	86°38'14.14" उ	21°58'03.98" पू
502	मयूरभंज	शमखुंटा	दुधीअसोल	86°39'15.95" उ	21°54'31.56" पू
503	मयूरभंज	शमखुंटा	दुल्दराधानगर	86°36'26.48" उ	21°53'37.02" पू
504	मयूरभंज	शमखुंटा	इनायातपुर	86°36'14.64" उ	21°54'19.70" पू
505	मयूरभंज	शमखुंटा	फुलझारासामिलफतुदीहा	86°38'32.76" उ	21°59'39.56" पू
506	मयूरभंज	शमखुंटा	गरूपाल	86°38'21.40" उ	22°00'00.35" पू
507	मयूरभंज	शमखुंटा	घानसारिया	86°38'20.26" उ	22°00'22.00" पू
508	मयूरभंज	शमखुंटा	गोदीपोखारी	86°37'02.84" उ	21°55'58.88" पू
509	मयूरभंज	शमखुंटा	गोविंदचंद्रपुर	86°35'02.23" उ	21°55'52.35" पू
510	मयूरभंज	शमखुंटा	हलदीबानी	86°36'57.47" उ	22°01'09.70" पू
511	मयूरभंज	शमखुंटा	हरीसुल	86°38'41.30" उ	21°53'57.86" पू
512	मयूरभंज	शमखुंटा	हीन्जालगादिया	86°36'25.45" उ	21°59'28.53" पू
513	मयूरभंज	शमखुंटा	जमसुल	86°37'56.25" उ	22°00'00.49" पू
514	मयूरभंज	शमखुंटा	जयबिल्ला	86°39'43.51" उ	21°55'31.66" पू
515	मयूरभंज	शमखुंटा	झिलरीबानी	86°37'34.95" उ	22°01'07.39" पू
516	मयूरभंज	शमखुंटा	झीनी	86°36'30.97" उ	21°57'57.03" पू
517	मयूरभंज	शमखुंटा	झोगंद्रादासजोट	86°33'22.09" उ	21°56'25.20" पू
518	मयूरभंज	शमखुंटा	झुअलीरूम	86°39'16.19" उ	21°59'20.00" पू
519	मयूरभंज	शमखुंटा	काकरपानी	86°37'03.62" उ	21°55'22.95" पू
520	मयूरभंज	शमखुंटा	कालापाथर	86°36'54.67" उ	22°00'38.85" पू
521	मयूरभंज	शमखुंटा	केन्दुअ	86°38'25.39" उ	21°53'16.92" पू
522	मयूरभंज	शमखुंटा	केदुझारी	86°36'15.11" उ	21°52'58.71" पू
523	मयूरभंज	शमखुंटा	केदिया	86°39'09.76" उ	21°58'33.66" पू
524	मयूरभंज	शमखुंटा	खसादीहा	86°37'09.94" उ	21°56'32.39" पू
525	मयूरभंज	शमखुंटा	किसानदाही	86°38'13.29" उ	21°57'13.53" पू
526	मयूरभंज	शमखुंटा	किटादीही	86°35'46.92" उ	21°59'46.10" पू
527	मयूरभंज	शमखुंटा	कोचिलाघटय	86°35'37.05" उ	21°56'50.46" पू

528	मयूरभंज	शमखुंटा	करूसनाचांद्रारापुर	86°34'10.32" उ	21°56'18.29" पू
529	मयूरभंज	शमखुंटा	कुंदालबानी	86°39'23.51" उ	21°56'34.77" पू
530	मयूरभंज	शमखुंटा	लक्मिपोसि	86°36'27.06" उ	21°56'45.87" पू
531	मयूरभंज	शमखुंटा	लुलुंग	86°33'44.55" उ	21°56'30.95" पू
532	मयूरभंज	शमखुंटा	मालगामभारिया	86°38'16.64" उ	22°00'11.27" पू
533	मयूरभंज	शमखुंटा	मतिअली	86°38'34.90" उ	21°58'58.83" पू
534	मयूरभंज	शमखुंटा	मुदराजोडी	86°36'06.66" उ	22°01'19.82" पू
535	मयूरभंज	शमखुंटा	नंतासाही	86°37'44.85" उ	21°52'41.51" पू
536	मयूरभंज	शमखुंटा	नुअगन	86°37'26.16" उ	21°56'51.57" पू
537	मयूरभंज	शमखुंटा	पिथाबाटा	86°35'08.94" उ	21°56'18.42" पू
538	मयूरभंज	शमखुंटा	पुरूनापानी	86°34'55.37" उ	21°56'48.40" पू
539	मयूरभंज	शमखुंटा	रागमतिया	86°39'00.24" उ	21°55'57.69" पू
540	मयूरभंज	शमखुंटा	रंगिभोल	86°38'56.59" उ	21°52'45.64" पू
541	मयूरभंज	शमखुंटा	सालबानी	86°38'40.59" उ	21°56'22.48" पू
542	मयूरभंज	शमखुंटा	सामइदीही	86°38'19.65" उ	21°54'22.25" पू
543	मयूरभंज	शमखुंटा	संकोचीअमारा	86°39'33.50" उ	21°58'10.06" पू
544	मयूरभंज	शमखुंटा	संसुल	86°37'28.23" उ	21°54'56.58" पू
545	मयूरभंज	शमखुंटा	सपनचुआ	86°37'51.98" उ	21°56'07.55" पू
546	मयूरभंज	शमखुंटा	सरातचन्द्रापुर	86°37'27.64" उ	21°53'44.85" पू
547	मयूरभंज	शमखुंटा	तराजोदी	86°35'52.36" उ	21°57'27.63" पू
548	मयूरभंज	शमखुंटा	तोलाकपोखरी	86°39'12.62" उ	21°57'30.80" पू
549	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	अखापोलान	86°09'18.98" उ	21°34'41.88" पू
550	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	असानबनि	86°06'10.75" उ	21°39'17.91" पू
551	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	असानबनि	86°14'33.35" उ	21°30'10.64" पू
552	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	असानकुद्र	86°12'08.00" उ	21°36'26.05" पू
553	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	असुरखाल	86°14'57.21" उ	21°22'54.27" पू
554	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बदबलीपोसि	86°13'08.16" उ	21°34'23.38" पू
555	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बदबिल	86°11'18.63" उ	21°30'36.46" पू
556	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बदमहलदीहा	86°10'05.52" उ	21°37'46.01" पू
557	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बघमुन्दा	86°09'49.67" उ	21°28'59.70" पू
558	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बलियाबेदा	86°12'10.49" उ	21°29'37.74" पू
559	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बलिदीहा	86°12'09.06" उ	21°19'18.16" पू
560	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बनामुंदा	86°14'31.84" उ	21°27'05.93" पू

561	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बसनतपुर	86°09'41.52" उ	21°32'50.40" पू
562	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बाउला	86°12'20.37" उ	21°22'04.18" पू
563	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बेन्टकारपाडा	86°10'04.58" उ	21°30'42.87" पू
564	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	भादुबेदा	86°12'12.17" उ	21°28'38.87" पू
565	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	भेजीदीहा	86°16'48.56" उ	21°28'45.98" पू
566	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	चम्पझार	86°14'24.37" उ	21°29'19.22" पू
567	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	चउलाझार	86°08'26.88" उ	21°17'25.70" पू
568	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	छेरातनगर	86°08'09.24" उ	21°38'09.78" पू
569	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	चिरूपडा	86°14'23.77" उ	21°34'33.87" पू
570	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	दाकेईपाल	86°11'14.41" उ	21°27'47.56" पू
571	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	दानगदीहा	86°19'03.55" उ	21°29'56.30" पू
572	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	दानगापानी	86°09'57.61" उ	21°37'02.16" पू
573	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	धीरोल	86°11'15.90" उ	21°35'59.39" पू
574	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	दीगधार	86°11'01.56" उ	21°31'16.56" पू
575	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	दीलिगंज	86°16'03.01" उ	21°29'08.27" पू
576	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	दुअरा सुनी	86°10'02.32" उ	21°19'52.98" पू
577	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	दुबापाल	86°13'37.61" उ	21°27'17.28" पू
578	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	दुमुरदीहा	86°06'44.38" उ	21°38'56.30" पू
579	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	इदेलबेदा	86°09'08.43" उ	21°39'55.44" पू
580	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	घोदाबिनधा	86°11'27.50" उ	21°34'36.04" पू
581	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	गिरिबेदा	86°13'27.36" उ	21°28'16.99" पू
582	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	गोबरजोडा	86°11'37.43" उ	21°30'25.33" पू
583	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	गुहलदीही	86°10'11.72" उ	21°32'21.34" पू
584	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	गुलीअजोडी	86°11'22.15" उ	21°29'15.24" पू
585	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	हनदीफुता	86°10'22.85" उ	21°29'17.42" पू
586	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	हटीगोडा	86°10'19.39" उ	21°34'59.11" पू
587	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	जदीदार	86°10'39.52" उ	21°30'03.66" पू
588	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	जमबानी	86°14'59.49" उ	21°21'36.13" पू
589	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	जमुदीहा	86°10'27.16" उ	21°36'00.26" पू
590	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	जमुखानजारी	86°13'03.82" उ	21°29'10.83" पू
591	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	जमुनालिया	86°10'21.34" उ	21°33'25.74" पू
592	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	जमुपोसी	86°09'00.41" उ	21°36'42.98" पू
593	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	जंगल खंड सामिल सुदरसनपुर	86°13'47.40" उ	21°29'27.09" पू

594	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	झरझरी	86°15'26.28" उ	21°23'48.93" पू
595	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	जोडिपादा	86°15'57.28" उ	21°28'09.70" पू
596	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	कदापानी	86°09'39.28" उ	21°36'06.81" पू
597	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	कसिबेदा	86°08'32.79" उ	21°39'15.64" पू
598	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	केस्दीहा	86°13'51.32" उ	21°32'06.55" पू
599	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	खदीदामाक	86°07'20.37" उ	21°39'31.02" पू
600	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	खाम दीहा	86°08'40.12" उ	21°29'25.70" पू
601	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	खानदापाल	86°13'51.65" उ	21°27'46.18" पू
602	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	खापरखाइ	86°11'04.16" उ	21°37'08.17" पू
603	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	खुंतापोसी	86°09'52.27" उ	21°30'16.65" पू
604	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	किरिक्किचिपाल	86°15'13.60" उ	21°29'56.84" पू
605	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	कोकंदा	86°17'38.43" उ	21°28'31.91" पू
606	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	कुचेइदीहा	86°12'29.95" उ	21°27'44.54" पू
607	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	कुदेई	86°12'17.27" उ	21°20'29.50" पू
608	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	मंडाल झारी	86°14'58.85" उ	21°33'56.96" पू
609	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	मंकादाबेदा	86°14'59.46" उ	21°28'47.63" पू
610	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	मितुअनि	86°11'47.01" उ	21°33'08.95" पू
611	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	मुलापाल	86°14'53.46" उ	21°27'42.71" पू
612	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	नदा	86°11'31.27" उ	21°17'02.91" पू
613	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	निहानगांदी	86°10'18.67" उ	21°31'26.95" पू
614	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	निपानिया	86°09'20.93" उ	21°33'40.71" पू
615	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	नौगांव	86°10'19.06" उ	21°39'21.18" पू
616	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	नौगांव	86°14'16.12" उ	21°28'36.98" पू
617	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	नौपादा	86°13'04.23" उ	21°27'42.04" पू
618	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	पारिअरसाही	86°08'16.16" उ	21°36'50.05" पू
619	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	पतरपदा	86°18'29.28" उ	21°28'53.11" पू
620	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	पतबिल	86°10'45.89" उ	21°38'01.96" पू
621	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	पुरूनापानी	86°12'27.29" उ	21°31'46.64" पू
622	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	रानीभोल	86°08'25.22" उ	21°40'35.61" पू
623	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	रानीभोल	86°12'21.18" उ	21°35'34.39" पू
624	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	रूगुदीसाही	86°07'57.73" उ	21°39'53.38" पू
625	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	सेलाचुअ	86°11'02.47" उ	21°17'54.73" पू
626	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	सेलेइबेदा	86°09'22.64" उ	21°38'35.57" पू

627	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	संबालिपोसि	86°14'04.41" उ	21°28'04.20" पू
628	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	सनमोहलदीहा	86°11'02.07" उ	21°36'28.44" पू
629	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	सरुबिल	86°05'14.33" उ	21°39'02.16" पू
630	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	सताबेदी	86°13'53.88" उ	21°20'45.74" पू
631	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	सतकोसिया वन क्युस्टर	86°07'12.69" उ	21°20'21.15" पू
632	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	सतकोसिआमाल नामा पहाड़ी खंड	86°11'05.84" उ	21°21'25.81" पू
633	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	सुनिन्दा	86°10'47.55" उ	21°32'11.06" पू
634	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	थकुरमुन्दा	86°09'37.81" उ	21°31'13.07" पू
635	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बाघमारा	86°12'30.32" उ	21°17'32.41" पू
636	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बउसापानी	86°12'23.94" उ	21°18'02.35" पू
637	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बलीदीहा	86°12'10.48" उ	21°19'09.06" पू
638	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	धेन्किसाला	86°12'56.00" उ	21°22'55.60" पू
639	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	भलीअदोल	86°13'43.08" उ	21°14'21.70" पू
640	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	नादा	86°12'06.84" उ	21°18'27.13" पू
641	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	सलचुअ	86°11'17.15" उ	21°18'57.81" पू
642	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	बउनसागरी	86°13'04.47" उ	21°18'52.91" पू
643	मयूरभंज	ठकुरमुंदा	दुअरासुनी(भाग)	86°10'11.44" उ	21°20'10.77" पू
644	मयूरभंज	कपतिपाडा	पुनगिचुआ	86°18'43.20" उ	21°21'20.90" पू
645	मयूरभंज	उदाल	अदीपुर	86°32'14.77" उ	21°42'52.12" पू
646	मयूरभंज	उदाल	अम्बिकादेईपुर	86°31'14.75" उ	21°43'40.83" पू
647	मयूरभंज	उदाल	अनन्तापुर	86°28'26.46" उ	21°37'17.42" पू
648	मयूरभंज	उदाल	अनगरपादा	86°31'29.88" उ	21°37'54.08" पू
649	मयूरभंज	उदाल	बदाखामान	86°29'33.26" उ	21°36'48.77" पू
650	मयूरभंज	उदाल	बालाभादरापुर	86°30'04.78" उ	21°38'48.87" पू
651	मयूरभंज	उदाल	बलिछातरा	86°31'35.92" उ	21°38'37.57" पू
652	मयूरभंज	उदाल	ब्रह्मपुर	86°31'46.17" उ	21°41'25.88" पू
653	मयूरभंज	उदाल	चन्द्रापुर	86°32'57.45" उ	21°40'49.58" पू
654	मयूरभंज	उदाल	दामसाही	86°31'41.77" उ	21°40'09.46" पू
655	मयूरभंज	उदाल	गोबिन्दपुर	86°30'49.74" उ	21°39'09.24" पू
656	मयूरभंज	उदाल	जमुदीहा	86°29'53.17" उ	21°41'00.68" पू
657	मयूरभंज	उदाल	खालादी	86°31'21.06" उ	21°42'18.65" पू
658	मयूरभंज	उदाल	कुनदाबाई	86°29'48.87" उ	21°39'35.72" पू

659	मयूरभंज	उदाल	मनिकपुर	86°29'23.52" उ	21°38'22.35" पू
660	मयूरभंज	उदाल	मथिहुदी	86°31'20.97" उ	21°40'54.54" पू
661	मयूरभंज	उदाल	नयारानगमथिया	86°30'38.15" उ	21°37'58.51" पू
662	मयूरभंज	उदाल	नौगांव	86°30'50.09" उ	21°40'07.42" पू
663	मयूरभंज	उदाल	पतसानिपुर	86°32'17.46" उ	21°42'06.70" पू
664	मयूरभंज	उदाल	सल्मुन्दाली	86°30'23.41" उ	21°35'22.50" पू
665	मयूरभंज	उदाल	श्रीदामचंद्रारपुर	86°32'13.24" उ	21°39'38.39" पू
666	मयूरभंज	उदाल	टेनटाला	86°30'54.35" उ	21°41'38.39" पू
667	मयूरभंज	उदाल	उपारतालदीहा	86°28'55.83" उ	21°40'03.54" पू
668	क्योंझर	आनंदपुर	पैतपानी	86°12'29.79" उ	21°16'57.72" पू
669	क्योंझर	आनंदपुर	काथाकाटा	86°13'37.46" उ	21°15'22.75" पू
670	क्योंझर	हतादीही	थुनीगांव	86°15'21.16" उ	21°12'35.05" पू
671	क्योंझर	हतादीही	बाईदाखिया	86°15'45.74" उ	21°12'32.88" पू
672	क्योंझर	हतादीही	कारानजाबाती	86°16'15.96" उ	21°12'52.20" पू
673	क्योंझर	हतादीही	सारलापासि	86°15'47.70" उ	21°12'48.39" पू
674	क्योंझर	हतादीही	सुनदरपाल	86°16'15.31" उ	21°12'30.47" पू
675	क्योंझर	हतादीही	पुरूनापानी	86°16'58.68" उ	21°13'29.47" पू
676	क्योंझर	हतादीही	मधुबाना	86°17'53.59" उ	21°18'12.00" पू
677	क्योंझर	सहरापाडा	संकटपालिया	86°07'31.76" उ	23°01'45.00" पू

**उपाबंध-V****कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें )।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th January, 2019

**S.O. 505(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

**Draft Notification**

**WHEREAS**, the Similipal-Hadagarh Wildlife Sanctuaries and buffer part of Similipal Tiger reserve located in Mayurbhanj and Keonjhar districts in the State of Odisha is spread over an area of 5246.6 square kilometres. The Similipal Wildlife Sanctuary has an area of 2305 square kilometres, Similipal Tiger Reserve is spread over 2750 square kilometres and Hadagarh Wildlife Sanctuary covered an area of 191.60 square kilometres;

**AND WHEREAS**, the flora and fauna represent rich biological significance of these protected areas. As regards Similipal Wildlife Sanctuary, one of the largest tracts of contiguous forest with immeasurable ecosystem value and the largest watershed of northern Odisha, the rich diversity of habitats and mosaic of landscape supports a fascinating floral and faunal composition with 1253 flowering plant species, 99 non-flowering plant species, including 94 species of orchids, 55 species of mammals, 362 species of birds, 62 species of reptiles, 21 species of amphibians and many species of insects and micro flora; Similipal Wildlife Sanctuary supports the largest population of elephants as well as tigers in Odisha including the home for the unique melanistic tiger; As regards biodiversity of Hadagarh Wildlife sanctuary, it is habitat for 30 species of mammals, 37 species of birds, 15 species of reptiles and amphibians with a wetland named Hadagarh Dam and the forest type is of Northern Tropical Dry Deciduous forest dominated by Sal and its associates and the forest type belongs to (a) Dry Peninsular Sal Forest (5B/C 1C) (b) Northern dry mixed deciduous Forests (5B/C2);

**AND WHEREAS**, the mammals are represented by Asiatic elephant (*Elephas maximus*), gaur (*Bos gaurus*), sloth bear (*Melursus ursinus*), wild pig (*Sus scrofa*), chital (*Axis axis*), sambar (*Rusa unicolor*), Hanuman langur (*Semnopithecus entellus*), Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), Indian giant squirrel (*Ratufa indica*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), etc. The carnivores are represented by tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), jungle cat (*Felis chaus*), Indian wolf (*Canis lupus*), jackal (*Canis aureus*), bengal fox (*Vulpes bengalensis*), leopardcat (*Felis bengalensis*) etc.;

**AND WHEREAS**, Similipal Wildlife Sanctuary is having important connectivity with Kuldiha Wildlife Sanctuary in Balasore district and Hadagarh Wildlife Sanctuary in Keonjhar district for movement of elephants, tigers and other animals;

**AND WHEREAS**, minerals of strategic national importance like Iron, Platinum, Palladium etc. are available in close vicinity of the Similipal Tiger Reserve and Hadagarh Sanctuary; the people of the locality depend on the existing mines for their livelihood;

**AND WHEREAS**, the Eco-sensitive Zone of Kuldiha sanctuary is already separately notified;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Similipal-Hadagarh Wildlife Sanctuaries and buffer part of Similipal Tiger reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ..... around the boundary of Similipal-Hadagarh Wildlife Sanctuaries and buffer part of Similipal Tiger reserve, in Mayurbhanj and Keonjhar districts in the State of Odisha as Eco-sensitive Zone (here after in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1)The Eco-sensitive Zone shall be of 1765.29 square kilometers with an extent varying from **0 (zero) kilometer** along the important habitation adjoining the boundary on Eastern and South-eastern side of Hadagarh Sanctuary, 500 meters on South and South-western side, 2.0 kilometers around Northern Boundary of the Hadagarh Wildlife Sanctuary boundary and **five kilometers** from the boundary of the protected area of Similipal Wildlife Sanctuary and rest buffer including corridors of Similipal Tiger Reserve in the State of Odisha. The Eco-sensitive Zone area statement is:
- |  |                   |
|--|-------------------|
| (a) Around Similipal WL including STR buffer beyond 5 kilometres | : 1686.20 sq. km. |
| (b) Around Hadagarh Wildlife Sanctuary                           | : 79.09 sq. km.   |
| Total  |                   |
| : 1765.29 sq. km.  |                   |
- (2) The maps of the protected areas demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, and Annexure-IIC.**
- (3) List of geo-coordinates of the boundary of Similipal-Hadagarh Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in table **A** and **B** of **Annexure-III.**
- (4) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- (i) Environment and Forest,
  - (ii) Forest and Wildlife,
  - (iii) Agriculture,
  - (iv) Revenue,
  - (v) Urban Development,
  - (vi) Tourism,
  - (vii) Rural Development,
  - (viii) Irrigation and Flood Control,
  - (ix) Municipal,
  - (x) Panchayati Raj,
  - (xi) Public Works Department,
  - (xii) Mines Department,
  - (xiii) ST & SC Development Department, and
  - (xiv) Odisha State Pollution Control Board
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by the State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.** – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
  - (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
  - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
  - (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
    - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
  - (iii) untill the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
  - (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
  - (6) **Noise pollution.** -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
  - (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
  - (8) **Discharge of effluents.**-Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
  - (9) **Solid wastes.**-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
    - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
    - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
  - (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under.-
    - (a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
    - (b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
  - (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
  - (12) **Construction and demolition waste management.**-The construction and demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
  - (13) **E-waste.**-The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

- (14) **Vehicular traffic.**— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**—Prevention and control of vehicular pollution shall be in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**— The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**— All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
<b>B. Regulated Activities</b>		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.

22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
30.	Migratory grazers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
31.	Public rights.	Regulated under applicable laws.
32.	Collection of small fodder.	Regulated under applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
40.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
41.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. N.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Collector, Mayurbhanj	Chairman, ex officio
2.	Collector, Keonjhar/Representative of collector Keonjhar	Member;
3.	DFO cum Wildlife Warden- Baripada, Karanjia & Rairangpur & Keonjhar (WL) Division, Anandapur	Member;
4.	Superintendent of Police, Mayurbhanj	Member;
5.	Superintendent of Police, Keonjhar/Representative of Superintendent of Police, Keonjhar	Member;
6.	A representative of Non-governmental Organisation worked in the field of environment ( <i>To be to be nominated by PCCF (Wildlife), Odisha for three years</i> ).	Member;

7.	Representative of Member Secretary, Odisha State Pollution Control Board	Member;
8.	One representative from local Gram Panchayat body of Mayurbanj District	Member;
9.	One representative from local Gram Panchayat body of Keonjhar District, Anandapur Sub-Division	Member;
10.	One expert in the area of ecology and environment ( <i>To be nominated by the Government of Odisha for a period of three Years</i> )	
11.	Deputy Director, Similipal Tiger Reserve	Member-Secretary.

**6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25-21-2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


**ANNEXURE-I****BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE SIMLIPAL-HADAGARH WILDLIFE SANCTUARY**

The boundary line starts from the Point No -1 with GPS Coordinate E 86° 6' 12.31" N 21° 58' 11.49" inside Badampahar R.F. about 2 kilometers. from Jashipur then passed through village Lohabera, Barapandugandi, Kukudajharan Nala, Gunduria, Saragada village, touches the Khadkei reservoir having GPS Coordinate E 86° 13' 48.7" N 22° 06' 42.9" and leaves the same reservoir having GPS Coordinate E 86° 14' 45.2" N 22° 7' 15.8" then passes through village Rangamatia, Koilasuta, Polasbani, than crosses the Bankabahl reservoir near Nuadihi village then passes through Deodang & Parabhari village at Point-2 having GPS reading E 86° 21' 56.43" N 22° 9' 16.10" (400 Mtr. From parabari village) then crosses village Chhatan Sahi, Kudarsahi, Bisoil then crosses N.H-6, Kadapani and Pundida village then runs along the S.T.R. buffer boundary line and reaches Kankarahara adjoining village of STR boundary. Then it runs eastward then runs along the common boundary of STR and Odisha-Jharkhand Inter-State boundary then enters into boundary of STR then passes through the village Batajharan, Rundadiha, Duarsuni then it runs through village Tarana, Bhuyandih village then it runs along Danadakhal and along the STR boundary and crosses the NH-6 and reaches Point-3 having GPS reading E 86° 28' 23.98" N 22° 10' 29.07". Then it crosses Chuapani village and passes Railway line and Budhabalang River near village Hinjili then passes through village Asanbani, Jhaungaria, Kandla and crosses the Bhudhaghada river and Ghudu-Gaudha river then crosses village Dhobanijora and reaches northern side of village Boidikotha then passes through village Bhujubani, Patihinja then crosses river Budhabalang river near southern side of village Nuagan then crosses village Kumarpan and again crosses river Budhabalang, Kulipal, Patisimili, Gobindpur, Salbani, Mangrajiya then crosses the Budhabalang river near village Kuldiha then crosses the river palpala near Chhalapada village and Gourrumba village at Point-4 having GPS reading E 86° 23' 24.08" N 22° 19' 58.61". Then passes village Jhanudiha, Kiajandiha and crosses a canal near village Kundabani then cross Baldiha canal near village Balimundali then passes village Machhangsahi, Damdorpur, Sarisabhila, Bhalughar, Hatimora, Baralasaahi, Kamalsol, Asthajharan and passes along Dukura R.F. near village Nuagaon then passes Bangranadi, village Gopalpur, Tarkijharan, Pathar, Jharla, Nachhipur, Kudasahi, Dubarajpur, Molharpada, Chandrapur then crosses Kolha-nala then passes through village Hatsahi, Khodikasal, Hatimora, Balichhatra, Angarpada, Kutilinga then crosses Deo river and enters into Phooljhari R.F. then passes through village Langosahi then runs along the boundary line of Asanbani R.F. then enters inside Kalo Dam at Point-5 having GPS reading E 86° 30' 19.98" N 22° 8' 52.53". Then it passes village Barajhar then runs along the boundary of STR buffer then it passes through Katuria, Kuntaparba, Purunapani, Shukurburu village then it runs along the STR buffer boundary and reaches Bhogadopa colony at Point-6 having GPS reading of E 86° 39' 45.92" N 21° 58' 29.39". Then it passes through Dumukabani, Mathlachua, Sripadamanjaripur village at Point-7 having GPS reading E 86° 27' 2.98" N 21° 30' 53.64". Then it passes through Jaunri R.F. then crosses village Ruguri, Harisahi then reaches Point-8 having GPS reading E 86° 17' 4.62" N 21° 23' 44.97" which is near the Sukuapada PRF. Then it runs along the Sukuapada PRF and crosses the same PRF and reaches Point-9 having GPS reading E 86° 20' 21.32" N 21° 21' 20.65" which is near the Sukuapada PRF. Then it runs along the Sukuapada PRF crosses the same PRF and reaches Point-10 having GPS reading E 86° 22' 34.91" N 21° 19' 12.63". Then runs along the boundary of Sukuapada PRF and reaches the district boundary at Point-11 having GPS reading E 86° 21' 15.16" N 21° 19' 16.68". Then it runs along the district boundary of Mayurbhanj and Keonjhar (Baula R.F.) and reaches the trijunction point of Mayurbhanj-Keonjhar-Balasore district at Point-12 having GPS reading E 86° 21' 28.47" N 21° 17' 57.08". Then it runs along the District boundary of Keonjhar-Balasore and reaches village Jarhabank then runs westward, crosses the Baula R.F. then passes through village Nuasahi, Sankana, Kusatikiri and runs along Hadgarh reservoir and Baula R.F. and reach Point-13 near village Hadgarh having GPS reading E 86° 17' 49.58" N 21° 16' 32.70" which is on the boundary line of Baula R.F. than its reaches a Point-14 having GPS reading E 86° 18' 5.42" N 21° 16' 24.20" which is situated inside village Hadgarh then runs through village Madhuban, Hadrabari, Ambanalla, Purunapani, Sundarpal, Thunigan then reaches a Point-15 having G.P.S. reading E 86° 14' 12.06" N 21° 11' 42.45" which is in a dense scrub. Then it crosses village Chhenapadi, Baragharia, Malharpada, Chilajori, Kainphuta, Kathakata reaches Point-16 having GPS reading E 86° 12' 31.55" N 21° 16' 47.43" near village Kantipal. Then it crosses the Ghagra nala and touches the common district boundary of Keonjhar and Mayurbhanj and reaches Point-17 having GPS reading E 86° 11' 38.52" N 21° 16' 29.73" which is on the boundary line of Nada RF. Then it runs along the STR boundary and reaches Point-18 having GPS reading E 86° 12' 28" N 21° 23' 0.06" i.e. common boundary of Satkosia R.F. and Bhaliadal PRF. Then it runs along the STR boundary and reaches Point-19 having GPS reading E 86° 13' 57.52" N 21° 23' 56.37" near village Bhaliadal. Then its runs along the STR boundary up to Goudiabhal R.F. then runs along the boundary of Khuntal RF then run along the boundary line of Satkosia R.F. and it crosses village Banamunda and Banamunda RF and crosses Salandi River then runs through the Kathuarugan R.F. then it touches the Jorka R.F. and then crosses Gobarjhara river then passes village Taramara and enters the Handiphuta R.F. then runs along the boundary line of Taramara RF and touches the boundary line of Handiphuta RF then runs along the boundary line of Handiphuta RF and touches the Satkosia-Thakurmunda Road then again touches the boundary line of Handiphuta RF and runs along the boundary line of same R.F. then it passes through Thakurmunda, Rurudibara village then it crosses the Ruguribara R.F. then enters in to Chamkapur R.F. and than it passes through Chainbansi market then it passes the Simnadi, Kalijiani village then it enters in to Kalijiani R.F., Sonariposi village then it runs along the boundary line of Chheratangar R.F. then passes through Kendujiani village then crosses the Tel River then passes through Sarubil village then it enters in to Sarubil R.F. and then touch the Point-20

having GPS reading E 86° 4' 22.15'' N 21° 40' 8.38'' then runs along the District boundary as well as Rengalbera R.F and crosses the Dhiral River and touches the Point-21 having GPS reading E 86° 4' 6.20'' N 21° 41' 19.47'' near village Chandposi. Then it enters in to Kenjhara R.F., Badsahi village, Poraidhora RF and passes through Gopalpur village, Hatijalbera RF, Koliposi , Rurag village then cross the Deo river then passes the Baghuakudar, Garidiha, Edalbeda, Kunjia, Dumurisahi village then enters in to Biunria RF then reaches Gidhibas ,Haldiaposi, Kararia, Bakla, Singarpur village then crosses the Beguna R.F. then crosses the Khairi river near Barasol village then crosses the N H-6 and touches the starting Point-1 inside Badampahar RF.


**ANNEXURE- IIA**

**LOCATION MAP SIMILIPAL-HADAGARH WILDLIFE SANCTUARY and ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE OF ODISHA**




**ANNEXURE- IIB**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SIMILIPAL-HADAGARH WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SETTELITE IMAGE**



**ANNEXURE- IIC**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SIMILIPAL-HADAGARH WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET**



## ANNEXURE-III

TABLE A: Geo-coordinates of prominent locations of Similipal-Hadagarh Wildlife Sanctuary

Id	Latitude	Longitude
1	21.406966 N	86.181948 E
50	21.38601 N	86.156164 E
100	21.418697 N	86.192451 E
150	21.421309 N	86.217449 E
200	21.4514 N	86.20178 E
250	21.463543 N	86.145377 E
300	21.478511 N	86.126274 E
350	21.500947 N	86.151562 E
400	21.579588 N	86.144401 E
450	21.640141 N	86.101825 E
500	21.691565 N	86.068261 E
550	21.772933 N	86.038175 E
600	21.860853 N	86.033629 E
650	21.934763 N	86.083752 E
700	22.011363 N	86.125512 E
750	22.071536 N	86.192308 E
800	22.127334 N	86.261938 E
850	22.157358 N	86.34782 E
900	22.176142 N	86.435198 E
950	22.195793 N	86.406715 E
1000	22.198185 N	86.37854 E
1050	22.228201 N	86.369221 E
1100	22.258586 N	86.369064 E
1150	22.230886 N	86.412286 E
1200	22.267097 N	86.417061 E
1250	22.277893 N	86.360072 E
1300	22.244342 N	86.321031 E
1400	22.290048 N	86.314067 E
1450	22.25532 N	86.305396 E
1500	22.277436 N	86.289678 E
1550	22.316036 N	86.334655 E
1600	22.301506 N	86.381697 E
1650	22.292699 N	86.424539 E
1700	22.317269 N	86.393246 E
1750	22.302557 N	86.442449 E
1800	22.257647 N	86.450857 E
1850	22.211961 N	86.444034 E
1870	22.205672 N	86.461171 E
1900	22.212079 N	86.500169 E
1950	22.190462 N	86.533376 E
2000	22.15242 N	86.520843 E

2050	22.097589 N	86.523228 E
2100	22.075016 N	86.579667 E
2150	22.018264 N	86.640518 E
2200	21.937256 N	86.661006 E
2250	21.85131 N	86.647774 E
2300	21.775187 N	86.603602 E
2350	21.702142 N	86.561256 E
2400	21.625656 N	86.523769 E
2450	21.546829 N	86.479311 E
2500	21.483855 N	86.421108 E
2550	21.460979 N	86.334174 E
2600	21.437344 N	86.263303 E
2650	21.364305 N	86.265893 E
2700	21.313164 N	86.197792 E
2750	21.298383 N	86.175735 E
2800	21.278182 N	86.139648 E
2850	21.3104 N	86.11152 E
2900	21.359478 N	86.122796 E
2950	21.365567 N	86.150656 E
3000	21.376909 N	86.188546 E
3050	21.398721 N	86.230025 E

**TABLE B: Geo-coordinates with prominent locations of Eco-Sensitive Zone**

Points	Latitude			Longitude		
	Deg	Min	Sec	Deg	Min	Sec
1.	21	58	11.49	86	6	12.31
2.	22	9	16.10	86	21	56.43
3.	22	10	29.07	86	28	23.98
4.	22	19	58.61	86	23	24.08
5.	22	8	52.53	86	30	19.98
6.	21	58	29.39	86	39	45.92
7.	21	30	53.64	86	27	2.98
8.	23	23	44.97	86	17	4.62
9.	21	21	20.65	86	20	21.32
10.	21	19	12.63	86	22	34.91
11.	21	19	16.68	86	21	15.16
12.	21	17	57.08	86	21	28.47
13.	21	16	32.70	86	17	49.58
14.	21	16	24.20	86	18	5.42

15.	21	11	42.45	86	14	12.06
16.	21	16	47.43	86	12	31.55
17.	21	16	29.73	86	11	38.52
18.	21	23	0.06	86	12	28.00
19.	21	23	56.37	86	13	57.72
20.	21	40	8.38	86	4	22.15
21.	21	41	19.47	86	4	6.20

## ANNEXURE-IV

**LIST OF REVENUE VILLAGE AREA FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SIMILIPAL-  
HADAGARH WILDLIFE SANCTUARY SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl. No.	Name of District	NAME OF PANACHAYAT SAMITI/C.D. BLOCK	Name of Village	GPS location of village	
				Longitude	Latitude
1	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Alapani	86°25'16.47" N	22°01'10.69" E
2	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Amdapani	86°24'45.62" N	22°01'19.85" E
3	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Anlajodi	86°31'01.03" N	22°05'31.46" E
4	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Asansikar	86°28'22.97" N	22°05'07.34" E
5	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Astabeda	86°26'36.43" N	22°04'43.24" E
6	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Badamtalia	86°29'40.42" N	22°03'34.79" E
7	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Badgan	86°30'41.31" N	22°00'47.40" E
8	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Badnedam	86°27'18.71" N	22°04'12.33" E
9	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Baliadhipa	86°20'45.55" N	22°02'00.47" E
10	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Baribeda	86°26'17.70" N	22°01'42.34" E
11	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Basantpur	86°30'05.48" N	22°06'34.19" E
12	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Basilakacha	86°24'45.30" N	22°01'39.72" E
13	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Basukitala	86°27'36.98" N	22°06'18.91" E
14	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Baunsapahadi	86°24'07.87" N	22°02'46.27" E
15	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Bautia	86°25'46.17" N	22°04'36.75" E
16	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Beguniabandh	86°21'04.00" N	22°02'19.55" E
17	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Betjharan	86°25'27.42" N	22°03'38.94" E
18	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Bhaduakacha	86°25'35.37" N	22°00'48.86" E
19	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Bhagirathipur	86°26'50.57" N	22°06'12.82" E
20	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Bholagadia	86°28'04.26" N	22°06'53.36" E
21	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Bhuasuni	86°33'29.52" N	22°03'05.24" E
22	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Brahmangan	86°22'40.37" N	22°02'29.20" E
23	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Budhikhamari	86°30'35.67" N	22°04'45.69" E
24	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Chakdar	86°32'24.04" N	22°03'05.24" E

25	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Chakidi	86°24'23.55" N	22°00'12.37" E
26	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Chandbil	86°27'04.73" N	22°05'50.22" E
27	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Charabandh	86°22'25.09" N	22°00'41.26" E
28	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Dantiakacha	86°22'48.17" N	22°01'04.44" E
29	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Dasisul	86°30'17.88" N	22°08'06.49" E
30	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Dhadipani	86°22'48.03" N	22°01'31.59" E
31	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Dhobanijoda	86°33'02.61" N	22°03'55.41" E
32	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Dumuhani	86°23'34.56" N	22°03'22.00" E
33	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Fuljhara	86°25'54.55" N	22°00'49.45" E
34	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Gendapokhari	86°32'06.25" N	22°01'16.37" E
35	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Ghatiduba	86°26'12.21" N	22°04'06.61" E
36	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Ghatkuanri	86°22'53.61" N	22°03'04.99" E
37	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Gohirapal	86°28'29.64" N	22°07'13.41" E
38	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Gopalpur	86°29'56.25" N	22°05'24.81" E
39	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Gopalpur	86°33'50.77" N	22°01'22.43" E
40	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Gothanida	86°29'15.84" N	22°03'07.83" E
41	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Hatibari	86°24'47.28" N	22°03'52.82" E
42	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Jaladiha	86°29'17.11" N	22°01'53.16" E
43	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Jamtalia	86°24'16.91" N	22°01'27.30" E
44	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Jerkani	86°25'41.90" N	22°01'18.27" E
45	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Joka	86°29'21.13" N	22°04'11.94" E
46	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Juha	86°31'29.95" N	22°00'17.33" E
47	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Kadamdiha	86°20'29.99" N	22°01'30.53" E
48	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Kalapathar	86°33'16.86" N	22°01'45.33" E
49	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	kamalpur	86°27'20.47" N	22°05'39.64" E
50	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Kanchhinda	86°26'54.25" N	22°05'15.37" E
51	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Kantasala	86°32'43.57" N	22°00'50.34" E
52	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Khadighati	86°24'14.32" N	22°01'01.87" E
53	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Khadikasul	86°31'07.22" N	22°04'24.67" E
54	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Kripaduma	86°32'00.71" N	22°02'06.21" E
55	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Kukurbhuka	86°24'41.05" N	22°00'52.58" E
56	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Kumbhirmundi	86°25'10.34" N	22°04'13.05" E
57	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Kundalbani	86°32'08.76" N	22°00'08.28" E
58	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Kurukutia	86°28'58.66" N	22°04'54.00" E
59	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Kusumbandha	86°28'56.67" N	22°05'58.46" E
60	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Kusumtota	86°24'04.66" N	22°00'24.57" E
61	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Labania	86°29'56.51" N	22°04'55.00" E
62	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Laxmiposi	86°27'46.53" N	22°06'04.04" E
63	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Majhigan	86°29'48.84" N	22°02'52.59" E
64	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Majhigan	86°23'33.93" N	22°02'38.98" E

65	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Masinabila	86°28'27.15" N	22°02'35.98" E
66	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Mohanpur	86°22'13.26" N	22°02'43.37" E
67	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Nayadasisul	86°29'39.95" N	22°08'53.48" E
68	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Nischinta	86°29'50.86" N	22°07'23.40" E
69	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Palasbani	86°27'50.70" N	22°04'31.54" E
70	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Panasdiha	86°31'00.02" N	22°01'34.30" E
71	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Pandrabandha	86°30'26.54" N	22°05'37.80" E
72	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Pandubadi	86°33'10.19" N	22°02'46.14" E
73	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Pindargadia	86°27'36.02" N	22°06'37.47" E
74	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Purunapani	86°33'43.27" N	22°02'10.63" E
75	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Purunapani	86°24'42.51" N	22°00'27.05" E
76	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Purusotampur	86°33'39.37" N	22°03'43.74" E
77	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Rajabasa	86°28'19.81" N	22°02'00.82" E
78	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Ramharipur	86°33'23.09" N	22°01'01.12" E
79	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Rangamatia	86°27'42.54" N	22°05'07.93" E
80	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Rayan	86°32'51.38" N	22°02'29.72" E
81	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Rengalbeda	86°21'27.47" N	22°01'53.73" E
82	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Sadheikala	86°30'20.27" N	22°02'41.74" E
83	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Salghati	86°22'40.60" N	22°02'05.50" E
84	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Sannedam	86°27'38.97" N	22°03'58.95" E
85	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Sarbania	86°24'22.64" N	22°03'40.78" E
86	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Sirasahi	86°29'42.41" N	22°07'51.00" E
87	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Sorisapal	86°24'38.22" N	22°03'13.26" E
88	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Sunaposi	86°30'45.93" N	22°02'08.70" E
89	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Sundhisahi	86°28'57.27" N	22°07'22.50" E
90	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Talbandh	86°20'16.22" N	22°01'41.71" E
91	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Tangiabasa	86°30'33.13" N	22°03'24.63" E
92	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Tila	86°32'50.02" N	22°01'46.08" E
93	MAYURBHANJ	Bangiriposhi	Udali	86°31'45.99" N	22°03'48.83" E
94	MAYURBHANJ	Barsahi	Badasorisabhila	86°39'02.51" N	21°51'54.92" E
95	MAYURBHANJ	Barsahi	Betanati	86°38'07.58" N	21°50'28.04" E
96	MAYURBHANJ	Barsahi	Chandanchaturi	86°36'13.99" N	21°49'51.02" E
97	MAYURBHANJ	Barsahi	Chekamara	86°37'20.96" N	21°50'42.86" E
98	MAYURBHANJ	Barsahi	Jadunathpur	86°37'07.59" N	21°50'08.80" E
99	MAYURBHANJ	Barsahi	Madhupur	86°37'18.12" N	21°49'38.93" E
100	MAYURBHANJ	Barsahi	Prativapur	86°38'57.75" N	21°51'27.90" E
101	MAYURBHANJ	Barsahi	Purnachandrapur	86°37'53.85" N	21°49'51.06" E
102	MAYURBHANJ	Barsahi	Rautraipur	86°37'30.37" N	21°50'00.70" E
103	MAYURBHANJ	Bijatola	Dhantangar	86°25'39.33" N	22°17'35.91" E
104	MAYURBHANJ	Bijatola	Jaldiha	86°18'53.39" N	22°08'00.76" E

105	MAYURBHANJ	Bijatola	Kundurukocha	86°22'33.13" N	22°13'05.11" E
106	MAYURBHANJ	Bijatola	Palasbani	86°18'18.28" N	22°08'21.19" E
107	MAYURBHANJ	Bijatola	Tiakati hill	86°25'01.77" N	22°17'31.48" E
108	MAYURBHANJ	Bisoi	Allapani	86°14'46.36" N	22°02'58.98" E
109	MAYURBHANJ	Bisoi	Andharjhari	86°14'08.52" N	22°03'04.58" E
110	MAYURBHANJ	Bisoi	Arjunbilla	86°16'09.86" N	22°05'35.79" E
111	MAYURBHANJ	Bisoi	Asana	86°17'49.03" N	22°06'41.15" E
112	MAYURBHANJ	Bisoi	Asanbani	86°20'26.16" N	22°07'10.61" E
113	MAYURBHANJ	Bisoi	Asansikhar	86°22'48.96" N	22°07'10.37" E
114	MAYURBHANJ	Bisoi	Bad Nalua	86°12'02.53" N	22°02'29.96" E
115	MAYURBHANJ	Bisoi	Badhunia	86°25'13.48" N	22°09'05.91" E
116	MAYURBHANJ	Bisoi	Badjambilla	86°16'02.73" N	22°06'33.45" E
117	MAYURBHANJ	Bisoi	Badmanada	86°13'59.97" N	22°05'05.30" E
118	MAYURBHANJ	Bisoi	Badpurunapani	86°13'31.81" N	22°05'57.23" E
119	MAYURBHANJ	Bisoi	Baghiatangar	86°12'53.22" N	22°01'22.95" E
120	MAYURBHANJ	Bisoi	Baneikala	86°12'09.50" N	22°04'02.61" E
121	MAYURBHANJ	Bisoi	Bankati	86°11'11.63" N	22°01'28.70" E
122	MAYURBHANJ	Bisoi	Bankidihi	86°18'07.79" N	22°05'44.54" E
123	MAYURBHANJ	Bisoi	Bautibeda	86°20'56.90" N	22°08'46.30" E
124	MAYURBHANJ	Bisoi	Bhatchhatar	86°18'51.60" N	22°06'51.35" E
125	MAYURBHANJ	Bisoi	Bobelijoda	86°18'39.44" N	22°07'34.76" E
126	MAYURBHANJ	Bisoi	Brahmanpasi	86°15'10.18" N	22°06'13.87" E
127	MAYURBHANJ	Bisoi	Budamara	86°12'56.92" N	22°03'20.71" E
128	MAYURBHANJ	Bisoi	Budhi Khamari	86°14'35.60" N	22°03'57.97" E
129	MAYURBHANJ	Bisoi	Chadripahadi	86°14'54.97" N	22°02'20.44" E
130	MAYURBHANJ	Bisoi	Chatani	86°20'54.64" N	22°07'49.61" E
131	MAYURBHANJ	Bisoi	Chuakankar	86°26'12.60" N	22°08'29.95" E
132	MAYURBHANJ	Bisoi	Dabanki	86°14'27.87" N	22°06'18.45" E
133	MAYURBHANJ	Bisoi	Dantuani	86°25'56.16" N	22°07'52.33" E
134	MAYURBHANJ	Bisoi	Deopata	86°27'52.66" N	22°10'22.75" E
135	MAYURBHANJ	Bisoi	Dhalabeda	86°10'22.11" N	22°00'05.31" E
136	MAYURBHANJ	Bisoi	Dhana	86°24'11.20" N	22°08'59.92" E
137	MAYURBHANJ	Bisoi	Dhangidimuta	86°09'15.71" N	22°00'50.06" E
138	MAYURBHANJ	Bisoi	Duarsuni	86°27'09.95" N	22°12'00.06" E
139	MAYURBHANJ	Bisoi	Dudhakundi	86°27'26.55" N	22°10'59.90" E
140	MAYURBHANJ	Bisoi	Dumurdiha	86°10'07.15" N	22°01'13.02" E
141	MAYURBHANJ	Bisoi	Ektali	86°24'48.52" N	22°06'50.34" E
142	MAYURBHANJ	Bisoi	Gargadi	86°22'27.93" N	22°12'39.91" E
143	MAYURBHANJ	Bisoi	Ghodabandha	86°23'34.71" N	22°06'32.90" E
144	MAYURBHANJ	Bisoi	Gundurua	86°12'23.99" N	22°04'44.01" E

145	MAYURBHANJ	Bisoi	Hatichhad	86°25'56.20" N	22°12'56.61" E
146	MAYURBHANJ	Bisoi	Hizili	86°19'23.38" N	22°08'15.95" E
147	MAYURBHANJ	Bisoi	Jambani	86°15'26.06" N	22°04'36.42" E
148	MAYURBHANJ	Bisoi	Jamudihi	86°13'03.89" N	22°04'56.82" E
149	MAYURBHANJ	Bisoi	Kadapani	86°25'17.85" N	22°10'16.67" E
150	MAYURBHANJ	Bisoi	Kaduani	86°22'12.89" N	22°08'49.98" E
151	MAYURBHANJ	Bisoi	Kaduani	86°15'09.37" N	22°06'51.38" E
152	MAYURBHANJ	Bisoi	Kasipani	86°18'05.15" N	22°04'10.75" E
153	MAYURBHANJ	Bisoi	Katas	86°23'26.11" N	22°09'07.12" E
154	MAYURBHANJ	Bisoi	Kendumara	86°18'52.08" N	22°06'06.76" E
155	MAYURBHANJ	Bisoi	Kesam	86°13'23.56" N	22°02'25.20" E
156	MAYURBHANJ	Bisoi	Khadambeda	86°26'36.88" N	22°10'08.32" E
157	MAYURBHANJ	Bisoi	Khadiasul	86°17'09.19" N	22°05'56.94" E
158	MAYURBHANJ	Bisoi	Khejurikatas	86°22'53.82" N	22°08'58.32" E
159	MAYURBHANJ	Bisoi	Kitabeda	86°26'20.89" N	22°09'15.92" E
160	MAYURBHANJ	Bisoi	Kuilisuta	86°16'58.20" N	22°07'29.99" E
161	MAYURBHANJ	Bisoi	Kulgidihi	86°23'42.84" N	22°07'14.42" E
162	MAYURBHANJ	Bisoi	Kulipasi	86°11'44.33" N	22°03'42.02" E
163	MAYURBHANJ	Bisoi	Kurkutia	86°10'27.02" N	22°01'46.62" E
164	MAYURBHANJ	Bisoi	Mahiskudar	86°13'04.29" N	22°05'30.20" E
165	MAYURBHANJ	Bisoi	Mahubhandar	86°21'47.62" N	22°08'05.96" E
166	MAYURBHANJ	Bisoi	Majhigan	86°19'10.47" N	22°07'26.40" E
167	MAYURBHANJ	Bisoi	Makhuna	86°25'23.64" N	22°07'23.98" E
168	MAYURBHANJ	Bisoi	Mangalpur	86°20'06.90" N	22°08'28.53" E
169	MAYURBHANJ	Bisoi	Mayurbeka	86°11'47.91" N	22°01'06.24" E
170	MAYURBHANJ	Bisoi	Nangalkatapokharia	86°24'48.05" N	22°08'11.49" E
171	MAYURBHANJ	Bisoi	Nuadihi	86°19'44.08" N	22°08'59.11" E
172	MAYURBHANJ	Bisoi	Nuagan	86°11'08.26" N	22°02'38.97" E
173	MAYURBHANJ	Bisoi	Osadala	86°22'37.84" N	22°06'11.60" E
174	MAYURBHANJ	Bisoi	Palgoda	86°17'50.43" N	22°07'27.28" E
175	MAYURBHANJ	Bisoi	Pankhi	86°24'35.05" N	22°07'29.81" E
176	MAYURBHANJ	Bisoi	Parabhadi	86°21'32.36" N	22°09'15.65" E
177	MAYURBHANJ	Bisoi	Patharpoda	86°18'19.12" N	22°06'25.74" E
178	MAYURBHANJ	Bisoi	Pokharia	86°15'05.61" N	22°07'22.97" E
179	MAYURBHANJ	Bisoi	Purunabalichua	86°21'38.90" N	22°06'50.53" E
180	MAYURBHANJ	Bisoi	Radhanagar	86°13'27.10" N	22°03'52.96" E
181	MAYURBHANJ	Bisoi	Raikadkacha	86°17'04.76" N	22°05'10.99" E
182	MAYURBHANJ	Bisoi	Raikadkachahill	86°17'58.14" N	22°04'59.62" E
183	MAYURBHANJ	Bisoi	Rajabasa	86°28'22.79" N	22°11'04.56" E
184	MAYURBHANJ	Bisoi	Raliabindha	86°14'33.71" N	22°05'34.80" E

185	MAYURBHANJ	Bisoi	Rengalbeda	86°14'56.75" N	22°04'44.44" E
186	MAYURBHANJ	Bisoi	Rugudidihi	86°19'53.63" N	22°06'39.22" E
187	MAYURBHANJ	Bisoi	San Nalua	86°12'20.97" N	22°03'08.82" E
188	MAYURBHANJ	Bisoi	Sanbalichua	86°27'43.17" N	22°09'31.18" E
189	MAYURBHANJ	Bisoi	Sanjambilla	86°10'56.91" N	22°03'26.94" E
190	MAYURBHANJ	Bisoi	Sanmanada	86°13'42.68" N	22°04'29.19" E
191	MAYURBHANJ	Bisoi	Sanpurunapani	86°16'09.97" N	22°07'24.07" E
192	MAYURBHANJ	Bisoi	Sanrangamatia	86°20'35.51" N	22°05'24.34" E
193	MAYURBHANJ	Bisoi	Sunaposi	86°19'59.20" N	22°07'38.23" E
194	MAYURBHANJ	Bisoi	Talakbadi	86°19'31.09" N	22°05'46.21" E
195	MAYURBHANJ	Bisoi	Talapati	86°16'52.11" N	22°06'48.76" E
196	MAYURBHANJ	Bisoi	Tamal Bandha	86°12'29.02" N	22°01'49.13" E
197	MAYURBHANJ	Bisoi	Tambajhari	86°15'38.27" N	22°05'04.68" E
198	MAYURBHANJ	Bisoi	Tarana	86°28'06.82" N	22°11'56.75" E
199	MAYURBHANJ	Bisoi	Teleighutu	86°11'46.42" N	22°01'46.76" E
200	MAYURBHANJ	Bisoi	Thulukchatani	86°21'09.55" N	22°09'15.67" E
201	MAYURBHANJ	Jashipur	Asanabani	86°18'01.17" N	21°56'31.49" E
202	MAYURBHANJ	Jashipur	Asanabani	86°06'49.05" N	21°54'41.39" E
203	MAYURBHANJ	Jashipur	Astakuanr	86°22'23.19" N	21°51'55.83" E
204	MAYURBHANJ	Jashipur	Atharadeula	86°20'07.84" N	21°51'50.46" E
205	MAYURBHANJ	Jashipur	Badajhilli	86°11'16.63" N	21°58'02.79" E
206	MAYURBHANJ	Jashipur	Badakasira	86°16'12.52" N	21°49'04.40" E
207	MAYURBHANJ	Jashipur	Badasoki	86°18'26.45" N	21°54'41.42" E
208	MAYURBHANJ	Jashipur	Badmakabadi	86°25'34.21" N	21°51'28.24" E
209	MAYURBHANJ	Jashipur	Badsialinai	86°10'00.46" N	21°59'38.61" E
210	MAYURBHANJ	Jashipur	Badsole	86°06'08.00" N	21°57'26.45" E
211	MAYURBHANJ	Jashipur	Bakala	86°04'35.00" N	21°54'08.64" E
212	MAYURBHANJ	Jashipur	Bakua	86°22'00.84" N	21°49'47.64" E
213	MAYURBHANJ	Jashipur	Balarampur	86°23'30.86" N	21°52'45.09" E
214	MAYURBHANJ	Jashipur	Balikhhal	86°27'11.48" N	21°52'10.29" E
215	MAYURBHANJ	Jashipur	Bandirabasa	86°19'30.35" N	21°53'55.76" E
216	MAYURBHANJ	Jashipur	Banpandugandi	86°08'05.52" N	22°01'27.31" E
217	MAYURBHANJ	Jashipur	Baragadia	86°05'43.49" N	21°51'16.97" E
218	MAYURBHANJ	Jashipur	Baranga	86°08'30.81" N	21°55'30.40" E
219	MAYURBHANJ	Jashipur	Bareipani	86°21'17.29" N	21°56'49.37" E
220	MAYURBHANJ	Jashipur	Bargiput	86°07'57.11" N	21°59'44.04" E
221	MAYURBHANJ	Jashipur	Barigan	86°15'30.78" N	21°49'23.95" E
222	MAYURBHANJ	Jashipur	Barsia	86°20'31.51" N	21°56'44.42" E
223	MAYURBHANJ	Jashipur	Barsia	86°19'31.10" N	21°56'30.15" E
224	MAYURBHANJ	Jashipur	Basantapur	86°06'31.59" N	21°55'17.28" E

225	MAYURBHANJ	Jashipur	Begunia	86°08'44.80" N	21°59'26.61" E
226	MAYURBHANJ	Jashipur	Bhadusole	86°13'06.89" N	21°56'55.89" E
227	MAYURBHANJ	Jashipur	Bhradachua	86°17'00.23" N	21°48'53.70" E
228	MAYURBHANJ	Jashipur	Bilapaka	86°15'01.20" N	21°53'26.99" E
229	MAYURBHANJ	Jashipur	Brundeiposi	86°12'36.77" N	21°57'24.44" E
230	MAYURBHANJ	Jashipur	Budhabalanga	86°24'04.54" N	21°49'18.82" E
231	MAYURBHANJ	Jashipur	Chadripahadi	86°09'17.69" N	21°57'21.70" E
232	MAYURBHANJ	Jashipur	Chakasanpal	86°07'06.39" N	21°55'50.38" E
233	MAYURBHANJ	Jashipur	Chakundakacha	86°19'59.44" N	21°57'12.99" E
234	MAYURBHANJ	Jashipur	Chandikhaman	86°15'56.34" N	21°51'33.13" E
235	MAYURBHANJ	Jashipur	Chheligodhuli	86°09'21.51" N	22°00'10.02" E
236	MAYURBHANJ	Jashipur	Daldali	86°16'16.42" N	21°59'51.88" E
237	MAYURBHANJ	Jashipur	Dhalabani	86°08'56.65" N	21°56'17.69" E
238	MAYURBHANJ	Jashipur	Dhuduku	86°05'02.58" N	21°54'30.96" E
239	MAYURBHANJ	Jashipur	Dhuduruchampa	86°27'03.51" N	21°50'18.33" E
240	MAYURBHANJ	Jashipur	Durdura	86°08'57.15" N	21°58'44.55" E
241	MAYURBHANJ	Jashipur	Ekatali	86°05'54.72" N	21°54'32.48" E
242	MAYURBHANJ	Jashipur	Fulabadia	86°20'04.31" N	21°53'08.68" E
243	MAYURBHANJ	Jashipur	Ghaniaposi	86°07'21.36" N	21°54'49.10" E
244	MAYURBHANJ	Jashipur	Goili	86°05'37.27" N	21°55'50.80" E
245	MAYURBHANJ	Jashipur	Gopinathpur	86°26'46.32" N	21°51'02.27" E
246	MAYURBHANJ	Jashipur	Gudgudia	86°14'58.70" N	21°51'48.18" E
247	MAYURBHANJ	Jashipur	Gurandia	86°22'53.82" N	21°50'27.75" E
248	MAYURBHANJ	Jashipur	Haladia	86°13'58.54" N	21°59'14.83" E
249	MAYURBHANJ	Jashipur	Haladia	86°20'00.53" N	21°56'33.78" E
250	MAYURBHANJ	Jashipur	Handipuhan	86°07'52.85" N	21°58'36.54" E
251	MAYURBHANJ	Jashipur	Hatimundi	86°13'37.71" N	21°57'27.27" E
252	MAYURBHANJ	Jashipur	Hillblock	86°26'02.84" N	21°52'31.84" E
253	MAYURBHANJ	Jashipur	Jajadihi	86°20'31.65" N	21°52'20.56" E
254	MAYURBHANJ	Jashipur	Jamuani	86°13'09.90" N	21°57'15.36" E
255	MAYURBHANJ	Jashipur	Jurunda	86°24'54.54" N	21°54'12.03" E
256	MAYURBHANJ	Jashipur	Kaleitumba	86°06'02.53" N	21°52'08.40" E
257	MAYURBHANJ	Jashipur	Kaliani	86°09'31.58" N	21°54'58.13" E
258	MAYURBHANJ	Jashipur	Kalikaprasad	86°11'34.12" N	21°54'40.40" E
259	MAYURBHANJ	Jashipur	Kanchikina	86°06'27.75" N	21°53'10.77" E
260	MAYURBHANJ	Jashipur	Kapanda	86°07'09.11" N	21°55'39.05" E
261	MAYURBHANJ	Jashipur	Kaptira	86°06'59.55" N	21°56'44.37" E
262	MAYURBHANJ	Jashipur	Kasipal	86°07'41.39" N	21°57'47.35" E
263	MAYURBHANJ	Jashipur	Khediadunguri	86°16'01.68" N	21°51'05.63" E
264	MAYURBHANJ	Jashipur	Khejuria	86°18'16.10" N	21°48'22.75" E

265	MAYURBHANJ	Jashipur	Kiajhari	86°08'04.33" N	21°49'58.80" E
266	MAYURBHANJ	Jashipur	Kolajhari	86°19'20.32" N	21°57'00.34" E
267	MAYURBHANJ	Jashipur	Kolha	86°16'42.41" N	21°53'46.37" E
268	MAYURBHANJ	Jashipur	Kuanribil	86°18'25.41" N	21°50'59.22" E
269	MAYURBHANJ	Jashipur	Kukurbhuka	86°24'51.76" N	21°53'07.90" E
270	MAYURBHANJ	Jashipur	Kumari	86°15'04.17" N	21°51'19.53" E
271	MAYURBHANJ	Jashipur	Kumudabadi	86°06'31.40" N	21°53'54.57" E
272	MAYURBHANJ	Jashipur	Kundabil	86°16'33.29" N	21°49'24.21" E
273	MAYURBHANJ	Jashipur	Kundagad	86°13'34.53" N	21°56'26.06" E
274	MAYURBHANJ	Jashipur	Kusumi	86°15'32.23" N	21°50'16.09" E
275	MAYURBHANJ	Jashipur	Lembujharan	86°21'10.98" N	21°51'16.62" E
276	MAYURBHANJ	Jashipur	Madanmohanpur	86°11'58.74" N	21°57'38.88" E
277	MAYURBHANJ	Jashipur	Makabadi	86°26'13.22" N	21°51'44.91" E
278	MAYURBHANJ	Jashipur	Matiagarh	86°06'18.40" N	21°56'11.59" E
279	MAYURBHANJ	Jashipur	Naana	86°23'57.65" N	21°54'04.51" E
280	MAYURBHANJ	Jashipur	Nangalsila	86°05'20.10" N	21°52'50.98" E
281	MAYURBHANJ	Jashipur	Netraghosra	86°14'50.17" N	21°52'26.22" E
282	MAYURBHANJ	Jashipur	Nikhirda	86°25'51.12" N	21°53'23.11" E
283	MAYURBHANJ	Jashipur	Nuhamalia	86°07'53.77" N	22°00'43.65" E
284	MAYURBHANJ	Jashipur	Nuniagoda	86°18'45.82" N	21°55'50.16" E
285	MAYURBHANJ	Jashipur	Olkudar	86°10'16.24" N	21°54'39.05" E
286	MAYURBHANJ	Jashipur	Palgoda	86°13'03.15" N	21°56'25.39" E
287	MAYURBHANJ	Jashipur	Panchudahan	86°27'02.11" N	21°52'56.26" E
288	MAYURBHANJ	Jashipur	Podagarh	86°10'33.93" N	21°57'44.77" E
289	MAYURBHANJ	Jashipur	Podagarh	86°08'39.36" N	21°54'53.07" E
290	MAYURBHANJ	Jashipur	Rajpal	86°14'43.22" N	21°55'49.95" E
291	MAYURBHANJ	Jashipur	Ramachandrapur	86°07'55.86" N	22°01'13.77" E
292	MAYURBHANJ	Jashipur	Rautala	86°17'58.51" N	21°54'32.44" E
293	MAYURBHANJ	Jashipur	Saharpat	86°15'18.92" N	21°50'48.53" E
294	MAYURBHANJ	Jashipur	Sanasoki	86°18'18.67" N	21°55'17.98" E
295	MAYURBHANJ	Jashipur	Sanjhilli	86°13'24.68" N	21°57'35.58" E
296	MAYURBHANJ	Jashipur	Sankasira	86°15'50.92" N	21°49'54.48" E
297	MAYURBHANJ	Jashipur	Sansialinai	86°10'29.10" N	21°59'04.47" E
298	MAYURBHANJ	Jashipur	Sapachira	86°09'27.46" N	21°55'22.17" E
299	MAYURBHANJ	Jashipur	Saruda	86°24'05.80" N	21°50'59.20" E
300	MAYURBHANJ	Jashipur	Similipal	86°23'24.01" N	21°51'40.33" E
301	MAYURBHANJ	Jashipur	Singarpur	86°05'06.46" N	21°55'47.19" E
302	MAYURBHANJ	Jashipur	Suanpal	86°08'00.34" N	21°56'43.51" E
303	MAYURBHANJ	Jashipur	Tamakasili	86°11'28.54" N	21°53'42.89" E
304	MAYURBHANJ	Jashipur	Thakurgoda	86°10'45.35" N	21°54'58.41" E

305	MAYURBHANJ	Jashipur	Tilabadi	86°07'30.96" N	21°55'00.55" E
306	MAYURBHANJ	Jashipur	Tingiriani	86°12'20.22" N	21°56'52.75" E
307	MAYURBHANJ	Jashipur	Tulasibani	86°09'26.11" N	21°58'07.81" E
308	MAYURBHANJ	Jashipur	Uttaransa	86°10'56.57" N	21°54'26.27" E
309	MAYURBHANJ	Kaptipada	Badajunpal	86°26'12.69" N	21°33'55.45" E
310	MAYURBHANJ	Kaptipada	Bhandaripal	86°26'42.68" N	21°32'50.45" E
311	MAYURBHANJ	Kaptipada	Chakradharpur	86°28'39.44" N	21°35'43.72" E
312	MAYURBHANJ	Kaptipada	Chhanua	86°27'09.50" N	21°31'49.68" E
313	MAYURBHANJ	Kaptipada	Debala	86°25'47.11" N	21°31'40.24" E
314	MAYURBHANJ	Kaptipada	Gandidar	86°25'04.41" N	21°32'06.63" E
315	MAYURBHANJ	Kaptipada	Hill block No-171	86°27'59.68" N	21°33'49.94" E
316	MAYURBHANJ	Kaptipada	Hill block No-173	86°27'34.78" N	21°32'36.33" E
317	MAYURBHANJ	Kaptipada	Hillblock No-151	86°25'52.04" N	21°34'31.38" E
318	MAYURBHANJ	Kaptipada	Jayantipatta Samil Jamudiha	86°27'58.07" N	21°34'50.08" E
319	MAYURBHANJ	Kaptipada	Kadamsul	86°25'09.29" N	21°32'39.97" E
320	MAYURBHANJ	Kaptipada	Kantagadi	86°26'58.08" N	21°32'14.10" E
321	MAYURBHANJ	Kaptipada	Kantiali	86°25'32.01" N	21°34'03.02" E
322	MAYURBHANJ	Kaptipada	Koliolalsamil Pagadadiha	86°25'42.26" N	21°32'50.69" E
323	MAYURBHANJ	Kaptipada	Nachhipur	86°25'17.39" N	21°33'31.77" E
324	MAYURBHANJ	Kaptipada	Narasingbeda	86°28'52.16" N	21°33'15.36" E
325	MAYURBHANJ	Kaptipada	Nuasahi	86°26'12.27" N	21°32'11.16" E
326	MAYURBHANJ	Kaptipada	Nuhamalia	86°27'04.27" N	21°33'54.51" E
327	MAYURBHANJ	Kaptipada	Podadiha	86°26'26.21" N	21°33'22.88" E
328	MAYURBHANJ	Kaptipada	Potaldiha	86°29'47.25" N	21°34'18.07" E
329	MAYURBHANJ	Kaptipada	Sadanandapur	86°29'18.09" N	21°35'47.57" E
330	MAYURBHANJ	Kaptipada	Sanjunpal	86°27'23.70" N	21°35'27.52" E
331	MAYURBHANJ	Kaptipada	Sarbanaghaty	86°29'01.04" N	21°34'09.04" E
332	MAYURBHANJ	Kaptipada	Sarbanaghaty Hill block No-172	86°28'11.53" N	21°32'56.49" E
333	MAYURBHANJ	Kaptipada	Sukhuapata	86°18'02.30" N	21°22'45.92" E
334	MAYURBHANJ	Kaptipada	Talapadiasamiljiatkar	86°26'56.19" N	21°33'12.47" E
335	MAYURBHANJ	Karanjia	Anlakata	86°09'37.60" N	21°46'56.84" E
336	MAYURBHANJ	Karanjia	Antasahi	86°04'39.80" N	21°50'46.20" E
337	MAYURBHANJ	Karanjia	Badagan	86°03'49.46" N	21°51'07.25" E
338	MAYURBHANJ	Karanjia	Badbarahkamuda	86°07'04.39" N	21°48'04.36" E
339	MAYURBHANJ	Karanjia	Badramchandrapur	86°07'25.11" N	21°47'18.93" E
340	MAYURBHANJ	Karanjia	Baghalata	86°05'26.10" N	21°43'55.75" E
341	MAYURBHANJ	Karanjia	Bajenisila	86°03'43.85" N	21°43'25.54" E
342	MAYURBHANJ	Karanjia	Balibhal	86°04'25.79" N	21°43'44.01" E
343	MAYURBHANJ	Karanjia	Baliposi	86°05'53.93" N	21°42'38.16" E
344	MAYURBHANJ	Karanjia	Batagaudagan	86°03'48.29" N	21°52'22.95" E

345	MAYURBHANJ	Karanja	Batapalasa	86°03'33.56" N	21°49'11.15" E
346	MAYURBHANJ	Karanja	Batatainsira	86°04'23.91" N	21°52'56.55" E
347	MAYURBHANJ	Karanja	Bhalughar	86°03'25.48" N	21°44'01.24" E
348	MAYURBHANJ	Karanja	Bisipur	86°07'11.43" N	21°42'19.04" E
349	MAYURBHANJ	Karanja	Budhigan	86°10'32.21" N	21°45'32.68" E
350	MAYURBHANJ	Karanja	Burudihi	86°11'12.20" N	21°47'09.08" E
351	MAYURBHANJ	Karanja	Chheliaposi	86°03'32.31" N	21°46'31.91" E
352	MAYURBHANJ	Karanja	Dhatikibeda	86°04'48.56" N	21°40'02.69" E
353	MAYURBHANJ	Karanja	Dibigarh	86°05'56.28" N	21°48'07.07" E
354	MAYURBHANJ	Karanja	Dudhiani	86°09'07.17" N	21°47'24.78" E
355	MAYURBHANJ	Karanja	Gapalpur	86°02'59.32" N	21°44'08.01" E
356	MAYURBHANJ	Karanja	Gaudgan	86°04'24.20" N	21°46'37.11" E
357	MAYURBHANJ	Karanja	Godidiha	86°02'22.38" N	21°47'49.80" E
358	MAYURBHANJ	Karanja	Hatibari	86°05'16.71" N	21°48'35.79" E
359	MAYURBHANJ	Karanja	Hatisalbeda	86°04'38.72" N	21°44'31.78" E
360	MAYURBHANJ	Karanja	Jalada	86°10'04.49" N	21°48'26.59" E
361	MAYURBHANJ	Karanja	Jamunalia	86°05'04.68" N	21°43'02.62" E
362	MAYURBHANJ	Karanja	Jarasahi	86°04'48.17" N	21°45'09.14" E
363	MAYURBHANJ	Karanja	Jhumukakudar	86°02'28.95" N	21°46'45.84" E
364	MAYURBHANJ	Karanja	Kadalibadi	86°07'49.28" N	21°47'41.92" E
365	MAYURBHANJ	Karanja	Kadamadak	86°03'41.59" N	21°50'01.32" E
366	MAYURBHANJ	Karanja	Kalakada	86°03'53.23" N	21°42'44.82" E
367	MAYURBHANJ	Karanja	Kapandara	86°03'46.95" N	21°45'22.97" E
368	MAYURBHANJ	Karanja	Karadia	86°03'19.99" N	21°53'03.20" E
369	MAYURBHANJ	Karanja	Kendumundi	86°06'48.27" N	21°40'43.01" E
370	MAYURBHANJ	Karanja	Kenjhara	86°04'05.85" N	21°42'10.88" E
371	MAYURBHANJ	Karanja	Khadikudar	86°03'01.28" N	21°47'15.12" E
372	MAYURBHANJ	Karanja	Khalpada	86°09'32.11" N	21°46'17.48" E
373	MAYURBHANJ	Karanja	Khandiadar	86°05'23.91" N	21°51'01.96" E
374	MAYURBHANJ	Karanja	Koliposi	86°03'10.63" N	21°45'03.10" E
375	MAYURBHANJ	Karanja	Kunjia	86°02'02.13" N	21°49'47.70" E
376	MAYURBHANJ	Karanja	Kusapada	86°04'21.39" N	21°45'48.78" E
377	MAYURBHANJ	Karanja	Laxmiposi	86°11'07.13" N	21°47'41.29" E
378	MAYURBHANJ	Karanja	Malharpada	86°03'06.91" N	21°52'04.58" E
379	MAYURBHANJ	Karanja	Miludihi	86°05'35.29" N	21°45'55.19" E
380	MAYURBHANJ	Karanja	Miriginandi	86°04'02.08" N	21°47'46.31" E
381	MAYURBHANJ	Karanja	Nadhagadia	86°02'50.65" N	21°51'38.56" E
382	MAYURBHANJ	Karanja	Nakuda	86°02'40.60" N	21°50'50.26" E
383	MAYURBHANJ	Karanja	Nuagan	86°04'36.66" N	21°53'38.69" E
384	MAYURBHANJ	Karanja	Pahadmadak	86°04'40.66" N	21°49'51.58" E

385	MAYURBHANJ	Karanjia	Pahadpur	86°10'26.18" N	21°47'58.52" E
386	MAYURBHANJ	Karanjia	Panaspal	86°03'10.63" N	21°48'08.77" E
387	MAYURBHANJ	Karanjia	Patbil	86°05'33.28" N	21°41'52.25" E
388	MAYURBHANJ	Karanjia	Patulidiha	86°04'28.53" N	21°48'47.03" E
389	MAYURBHANJ	Karanjia	Paudia	86°05'15.45" N	21°47'08.80" E
390	MAYURBHANJ	Karanjia	Purunapani	86°06'01.84" N	21°48'49.17" E
391	MAYURBHANJ	Karanjia	Radang	86°02'38.27" N	21°46'04.71" E
392	MAYURBHANJ	Karanjia	Raitalia	86°03'54.68" N	21°53'12.28" E
393	MAYURBHANJ	Karanjia	Ramjodi	86°11'37.32" N	21°47'37.91" E
394	MAYURBHANJ	Karanjia	Rangamatia	86°08'38.53" N	21°46'56.11" E
395	MAYURBHANJ	Karanjia	Ranibholorofkalodar	86°08'57.84" N	21°47'48.76" E
396	MAYURBHANJ	Karanjia	Ranipat	86°03'50.04" N	21°50'43.67" E
397	MAYURBHANJ	Karanjia	Rengalbeda	86°05'28.94" N	21°40'41.30" E
398	MAYURBHANJ	Karanjia	Salarapada	86°02'37.92" N	21°48'54.45" E
399	MAYURBHANJ	Karanjia	Sanagansasan	86°04'01.07" N	21°51'37.34" E
400	MAYURBHANJ	Karanjia	Sanbarahkamuda	86°06'49.44" N	21°48'25.74" E
401	MAYURBHANJ	Karanjia	Sanramchandrapur	86°07'41.36" N	21°46'10.12" E
402	MAYURBHANJ	Karanjia	Saradha	86°04'51.24" N	21°52'05.12" E
403	MAYURBHANJ	Karanjia	Sialinai	86°03'02.84" N	21°50'07.93" E
404	MAYURBHANJ	Karanjia	Sudiam	86°05'21.06" N	21°45'17.36" E
405	MAYURBHANJ	Karanjia	Sunaposi	86°05'47.14" N	21°44'45.38" E
406	MAYURBHANJ	Karanjia	Sundhikudar	86°03'31.63" N	21°47'02.93" E
407	MAYURBHANJ	Karanjia	Syamchandrapur	86°07'06.98" N	21°46'48.14" E
408	MAYURBHANJ	Karanjia	Thakuramapatana	86°06'20.84" N	21°47'18.11" E
409	MAYURBHANJ	Karanjia	Thakurjharan	86°05'58.88" N	21°43'33.03" E
410	MAYURBHANJ	Khunta	Agnikumari	86°35'30.42" N	21°49'12.11" E
411	MAYURBHANJ	Khunta	Andiatikira	86°32'41.92" N	21°43'34.93" E
412	MAYURBHANJ	Khunta	Badaolia	86°33'37.80" N	21°44'05.24" E
413	MAYURBHANJ	Khunta	Badmamudia	86°33'36.42" N	21°42'50.60" E
414	MAYURBHANJ	Khunta	Bahalda	86°32'53.92" N	21°47'00.66" E
415	MAYURBHANJ	Khunta	Bangra	86°35'56.64" N	21°47'05.49" E
416	MAYURBHANJ	Khunta	Baniabasa	86°32'11.92" N	21°45'18.30" E
417	MAYURBHANJ	Khunta	Barudihi	86°33'05.78" N	21°43'14.87" E
418	MAYURBHANJ	Khunta	Bholagadia	86°34'14.40" N	21°43'43.51" E
419	MAYURBHANJ	Khunta	Bhupad	86°35'24.50" N	21°46'32.05" E
420	MAYURBHANJ	Khunta	Bhuruduchampa	86°34'56.04" N	21°46'00.71" E
421	MAYURBHANJ	Khunta	Bipracharanpur	86°32'13.51" N	21°43'32.77" E
422	MAYURBHANJ	Khunta	Chapaldihi	86°33'32.42" N	21°45'13.54" E
423	MAYURBHANJ	Khunta	Dabak	86°32'25.98" N	21°45'48.15" E
424	MAYURBHANJ	Khunta	Dengam	86°32'26.91" N	21°45'05.26" E

425	MAYURBHANJ	Khunta	Gameighati	86°34'21.90" N	21°47'40.89" E
426	MAYURBHANJ	Khunta	Girishchandrapur	86°35'56.46" N	21°47'43.19" E
427	MAYURBHANJ	Khunta	Girishchandrapur	86°34'09.23" N	21°46'25.52" E
428	MAYURBHANJ	Khunta	Gobindapur	86°33'05.41" N	21°42'16.69" E
429	MAYURBHANJ	Khunta	Gopalpur	86°32'45.79" N	21°44'24.32" E
430	MAYURBHANJ	Khunta	Hinjalgadia	86°34'21.55" N	21°45'38.05" E
431	MAYURBHANJ	Khunta	Jadidar	86°32'02.09" N	21°44'30.96" E
432	MAYURBHANJ	Khunta	Jharia	86°34'43.78" N	21°45'00.75" E
433	MAYURBHANJ	Khunta	Juradihi	86°33'22.91" N	21°47'36.45" E
434	MAYURBHANJ	Khunta	Kantamara	86°36'10.20" N	21°48'23.28" E
435	MAYURBHANJ	Khunta	Kendugadi	86°37'14.67" N	21°48'58.42" E
436	MAYURBHANJ	Khunta	Kusagadia	86°37'21.21" N	21°48'33.09" E
437	MAYURBHANJ	Khunta	Kusumghaty	86°34'08.44" N	21°45'05.93" E
438	MAYURBHANJ	Khunta	Lakshanasahi	86°37'06.59" N	21°48'18.50" E
439	MAYURBHANJ	Khunta	Mahalibasa	86°36'02.48" N	21°48'53.87" E
440	MAYURBHANJ	Khunta	Mahuldihi	86°32'12.06" N	21°44'10.20" E
441	MAYURBHANJ	Khunta	Nuagan	86°33'05.76" N	21°45'01.29" E
442	MAYURBHANJ	Khunta	Raidihi	86°33'00.40" N	21°42'48.68" E
443	MAYURBHANJ	Khunta	Raigadi	86°36'55.56" N	21°47'45.70" E
444	MAYURBHANJ	Khunta	Rangamatia	86°32'47.61" N	21°46'15.67" E
445	MAYURBHANJ	Khunta	Salabani	86°36'43.48" N	21°47'32.93" E
446	MAYURBHANJ	Khunta	Sanaolia	86°33'19.02" N	21°44'23.25" E
447	MAYURBHANJ	Khunta	Sansatsol	86°33'21.39" N	21°41'52.03" E
448	MAYURBHANJ	Khunta	Sapanchua	86°34'50.84" N	21°47'37.58" E
449	MAYURBHANJ	Khunta	Sirishchandrapur	86°36'02.13" N	21°48'05.02" E
450	MAYURBHANJ	Khunta	Srirampur	86°32'19.48" N	21°44'47.95" E
451	MAYURBHANJ	Khunta	Subarnamanjari	86°33'53.45" N	21°48'10.82" E
452	MAYURBHANJ	Khunta	Sunpokhari	86°34'50.49" N	21°48'29.08" E
453	MAYURBHANJ	Khunta	Tambagadi	86°36'52.44" N	21°48'06.12" E
454	MAYURBHANJ	Khunta	Tiakati	86°35'13.60" N	21°47'15.12" E
455	MAYURBHANJ	Kuliana	Baidikotha	86°34'58.70" N	22°03'54.63" E
456	MAYURBHANJ	Kuliana	Baliadahan	86°38'08.12" N	22°01'21.57" E
457	MAYURBHANJ	Kuliana	Barkuli	86°39'10.40" N	21°59'56.23" E
458	MAYURBHANJ	Kuliana	Barudihhi	86°35'21.69" N	22°04'25.26" E
459	MAYURBHANJ	Kuliana	Bhaduabeda	86°37'03.23" N	22°03'18.94" E
460	MAYURBHANJ	Kuliana	Bhadianuagan	86°36'31.24" N	22°03'01.32" E
461	MAYURBHANJ	Kuliana	Binjhabani	86°36'43.16" N	22°03'59.64" E
462	MAYURBHANJ	Kuliana	Dantamusal	86°37'53.00" N	22°02'51.73" E
463	MAYURBHANJ	Kuliana	Gendapokhari	86°35'22.99" N	22°01'57.92" E
464	MAYURBHANJ	Kuliana	Gidhibas	86°36'48.06" N	22°02'32.36" E

465	MAYURBHANJ	Kuliana	Gobindapur	86°38'52.56" N	22°00'20.71" E
466	MAYURBHANJ	Kuliana	Jagannathpur	86°34'57.03" N	22°02'32.59" E
467	MAYURBHANJ	Kuliana	Jamda	86°38'45.30" N	22°00'47.50" E
468	MAYURBHANJ	Kuliana	Jhilidam	86°34'52.17" N	22°03'17.86" E
469	MAYURBHANJ	Kuliana	Kamarpal	86°38'03.47" N	22°02'05.95" E
470	MAYURBHANJ	Kuliana	Kaniabuda	86°38'46.92" N	21°59'57.62" E
471	MAYURBHANJ	Kuliana	Kathpal	86°38'19.99" N	22°01'03.43" E
472	MAYURBHANJ	Kuliana	Mundhabani	86°35'27.03" N	22°03'03.46" E
473	MAYURBHANJ	Kuliana	Paikalisardiha	86°39'09.39" N	22°00'16.77" E
474	MAYURBHANJ	Kuliana	Patharghera	86°36'06.38" N	22°02'42.03" E
475	MAYURBHANJ	Kuliana	Patiasimili	86°38'30.94" N	22°01'05.90" E
476	MAYURBHANJ	Kuliana	Pokharia	86°37'09.75" N	22°01'59.69" E
477	MAYURBHANJ	Kuliana	Salbani	86°39'01.71" N	22°00'12.80" E
478	MAYURBHANJ	Kuliana	Sanpalasia	86°38'48.98" N	22°00'27.49" E
479	MAYURBHANJ	Kuliana	Srichandanpur	86°35'54.88" N	22°03'57.60" E
480	MAYURBHANJ	Kuliana	Sunthipal	86°39'07.80" N	21°59'46.21" E
481	MAYURBHANJ	Kuliana	Tiringidihi	86°37'17.54" N	22°02'45.98" E
482	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Akarsila	86°37'59.55" N	22°00'45.23" E
483	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Alubani	86°35'56.35" N	22°00'20.98" E
484	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Ambadali	86°37'42.90" N	21°58'40.84" E
485	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Asanbani	86°36'57.37" N	21°59'03.82" E
486	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Badkuchiamara	86°38'42.42" N	21°57'49.24" E
487	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Badkuldihia	86°38'43.34" N	21°57'12.20" E
488	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Badsol	86°38'26.13" N	21°55'00.47" E
489	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Balidiha	86°37'19.55" N	21°57'44.43" E
490	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Besarpani	86°36'15.18" N	21°52'14.43" E
491	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Bhalubasa	86°37'27.22" N	22°01'33.38" E
492	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Bhaluki	86°37'51.63" N	21°59'23.24" E
493	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Bholagadia	86°38'18.47" N	21°56'45.24" E
494	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Bhundapal	86°36'36.37" N	21°57'18.44" E
495	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Bishnupal	86°38'18.44" N	22°00'23.91" E
496	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Chadkata	86°37'15.54" N	22°00'18.16" E
497	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Chahatia Basang Bani	86°39'34.92" N	21°54'55.22" E
498	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Champagarh	86°33'57.12" N	21°57'03.83" E
499	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Chanabadia	86°38'07.12" N	22°00'29.34" E
500	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Chandanpur	86°39'22.61" N	21°53'58.78" E
501	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Danamara	86°38'14.14" N	21°58'03.98" E
502	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Dudhiasol	86°39'15.95" N	21°54'31.56" E
503	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Duldaradhanagar	86°36'26.48" N	21°53'37.02" E
504	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Enayatpur	86°36'14.64" N	21°54'19.70" E

505	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Fuljharasamilfatudiha	86°38'32.76" N	21°59'39.56" E
506	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Garupal	86°38'21.40" N	22°00'00.35" E
507	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Ghansaria	86°38'20.26" N	22°00'22.00" E
508	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Godipokhari	86°37'02.84" N	21°55'58.88" E
509	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Govindchandrapur	86°35'02.23" N	21°55'52.35" E
510	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Haldibani	86°36'57.47" N	22°01'09.70" E
511	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Harisul	86°38'41.30" N	21°53'57.86" E
512	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Hinjalgadia	86°36'25.45" N	21°59'28.53" E
513	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Jamsul	86°37'56.25" N	22°00'00.49" E
514	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Jaybilla	86°39'43.51" N	21°55'31.66" E
515	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Jhilibani	86°37'34.95" N	22°01'07.39" E
516	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Jhinei	86°36'30.97" N	21°57'57.03" E
517	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Jogendradasjot	86°33'22.09" N	21°56'25.20" E
518	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Jualiruma	86°39'16.19" N	21°59'20.00" E
519	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Kakarpani	86°37'03.62" N	21°55'22.95" E
520	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Kalapathar	86°36'54.67" N	22°00'38.85" E
521	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Kendua	86°38'25.39" N	21°53'16.92" E
522	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Kendujhari	86°36'15.11" N	21°52'58.71" E
523	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Khandia	86°39'09.76" N	21°58'33.66" E
524	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Khasadiha	86°37'09.94" N	21°56'32.39" E
525	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Kisandahi	86°38'13.29" N	21°57'13.53" E
526	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Kitadihi	86°35'46.92" N	21°59'46.10" E
527	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Kochilaghaty	86°35'37.05" N	21°56'50.46" E
528	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Krushnachandrapur	86°34'10.32" N	21°56'18.29" E
529	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Kundalbani	86°39'23.51" N	21°56'34.77" E
530	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Laxmiposi	86°36'27.06" N	21°56'45.87" E
531	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Lulung	86°33'44.55" N	21°56'30.95" E
532	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Malgambharia	86°38'16.64" N	22°00'11.27" E
533	MAYURBHANJ	Shamakhunta	matiali	86°38'34.90" N	21°58'58.83" E
534	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Mudrajodi	86°36'06.66" N	22°01'19.82" E
535	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Nantasahi	86°37'44.85" N	21°52'41.51" E
536	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Nuagan	86°37'26.16" N	21°56'51.57" E
537	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Pithabata	86°35'08.94" N	21°56'18.42" E
538	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Purunapani	86°34'55.37" N	21°56'48.40" E
539	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Rangamatia	86°39'00.24" N	21°55'57.69" E
540	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Rangibhol	86°38'56.59" N	21°52'45.64" E
541	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Salbani	86°38'40.59" N	21°56'22.48" E
542	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Samaidihi	86°38'19.65" N	21°54'22.25" E
543	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Sankochiamara	86°39'33.50" N	21°58'10.06" E
544	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Sansul	86°37'28.23" N	21°54'56.58" E

545	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Sapanchua	86°37'51.98" N	21°56'07.55" E
546	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Saratchandrapur	86°37'27.64" N	21°53'44.85" E
547	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Tarajodi	86°35'52.36" N	21°57'27.63" E
548	MAYURBHANJ	Shamakhunta	Tolakpokhari	86°39'12.62" N	21°57'30.80" E
549	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Akhopolan	86°09'18.98" N	21°34'41.88" E
550	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Asanbani	86°06'10.75" N	21°39'17.91" E
551	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Asanbani	86°14'33.35" N	21°30'10.64" E
552	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Asankudar	86°12'08.00" N	21°36'26.05" E
553	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Asurkhal	86°14'57.21" N	21°22'54.27" E
554	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Badbaliposi	86°13'08.16" N	21°34'23.38" E
555	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Badbil	86°11'18.63" N	21°30'36.46" E
556	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Badmahuldiha	86°10'05.52" N	21°37'46.01" E
557	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Baghamunda	86°09'49.67" N	21°28'59.70" E
558	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Baliabeda	86°12'10.49" N	21°29'37.74" E
559	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Balidiha	86°12'09.06" N	21°19'18.16" E
560	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Banamunda	86°14'31.84" N	21°27'05.93" E
561	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Basantpur	86°09'41.52" N	21°32'50.40" E
562	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Baula	86°12'20.37" N	21°22'04.18" E
563	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Bentakarpada	86°10'04.58" N	21°30'42.87" E
564	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Bhadubeda	86°12'12.17" N	21°28'38.87" E
565	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Bhejidiha	86°16'48.56" N	21°28'45.98" E
566	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Champajhar	86°14'24.37" N	21°29'19.22" E
567	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Chaulajhari	86°08'26.88" N	21°17'25.70" E
568	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Chheratangar	86°08'09.24" N	21°38'09.78" E
569	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Chirupada	86°14'23.77" N	21°34'33.87" E
570	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Dakeipal	86°11'14.41" N	21°27'47.56" E
571	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Dangadiha	86°19'03.55" N	21°29'56.30" E
572	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Dangapani	86°09'57.61" N	21°37'02.16" E
573	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Dhirol	86°11'15.90" N	21°35'59.39" E
574	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Digdhar	86°11'01.56" N	21°31'16.56" E
575	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Diligenj	86°16'03.01" N	21°29'08.27" E
576	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Duara Suni	86°10'02.32" N	21°19'52.98" E
577	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Dubapal	86°13'37.61" N	21°27'17.28" E
578	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Dumurdiha	86°06'44.38" N	21°38'56.30" E
579	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Edelbeda	86°09'08.43" N	21°39'55.44" E
580	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Ghodabindha	86°11'27.50" N	21°34'36.04" E
581	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Giribeda	86°13'27.36" N	21°28'16.99" E
582	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Gobarjoda	86°11'37.43" N	21°30'25.33" E
583	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Guhaldihi	86°10'11.72" N	21°32'21.34" E
584	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Gulijajodi	86°11'22.15" N	21°29'15.24" E

585	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Handifuta	86°10'22.85" N	21°29'17.42" E
586	MAYURBHANJ	Thakurmunda	hatigoda	86°10'19.39" N	21°34'59.11" E
587	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Jadidar	86°10'39.52" N	21°30'03.66" E
588	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Jambani	86°14'59.49" N	21°21'36.13" E
589	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Jamudiha	86°10'27.16" N	21°36'00.26" E
590	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Jamukhanjari	86°13'03.82" N	21°29'10.83" E
591	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Jamunalia	86°10'21.34" N	21°33'25.74" E
592	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Jamuposi	86°09'00.41" N	21°36'42.98" E
593	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Jangal Block Samil Sudarsanpur	86°13'47.40" N	21°29'27.09" E
594	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Jharjhari	86°15'26.28" N	21°23'48.93" E
595	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Jodipada	86°15'57.28" N	21°28'09.70" E
596	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Kadapani	86°09'39.28" N	21°36'06.81" E
597	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Kasibeda	86°08'32.79" N	21°39'15.64" E
598	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Kesdiha	86°13'51.32" N	21°32'06.55" E
599	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Khadidamak	86°07'20.37" N	21°39'31.02" E
600	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Kham Diha	86°08'40.12" N	21°29'25.70" E
601	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Khandapal	86°13'51.65" N	21°27'46.18" E
602	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Khaparkhai	86°11'04.16" N	21°37'08.17" E
603	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Khuntaposi	86°09'52.27" N	21°30'16.65" E
604	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Kirikichipal	86°15'13.60" N	21°29'56.84" E
605	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Kokanda	86°17'38.43" N	21°28'31.91" E
606	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Kucheidiha	86°12'29.95" N	21°27'44.54" E
607	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Kundei	86°12'17.27" N	21°20'29.50" E
608	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Mandal Jhari	86°14'58.85" N	21°33'56.96" E
609	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Mankadabeda	86°14'59.46" N	21°28'47.63" E
610	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Mituani	86°11'47.01" N	21°33'08.95" E
611	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Mulapal	86°14'53.46" N	21°27'42.71" E
612	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Nada	86°11'31.27" N	21°17'02.91" E
613	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Nihangandi	86°10'18.67" N	21°31'26.95" E
614	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Nipania	86°09'20.93" N	21°33'40.71" E
615	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Nuagaon	86°10'19.06" N	21°39'21.18" E
616	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Nuagaon	86°14'16.12" N	21°28'36.98" E
617	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Nuapada	86°13'04.23" N	21°27'42.04" E
618	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Pariarsahi	86°08'16.16" N	21°36'50.05" E
619	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Patarpada	86°18'29.28" N	21°28'53.11" E
620	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Patbil	86°10'45.89" N	21°38'01.96" E
621	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Purunapani	86°12'27.29" N	21°31'46.64" E
622	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Ranibhol	86°08'25.22" N	21°40'35.61" E
623	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Ranibhol	86°12'21.18" N	21°35'34.39" E
624	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Rugudisahi	86°07'57.73" N	21°39'53.38" E

625	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Salachua	86°11'02.47" N	21°17'54.73" E
626	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Saleibeda	86°09'22.64" N	21°38'35.57" E
627	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Sanbaliposi	86°14'04.41" N	21°28'04.20" E
628	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Sanmohuldiha	86°11'02.07" N	21°36'28.44" E
629	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Sarubil	86°05'14.33" N	21°39'02.16" E
630	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Satabedi	86°13'53.88" N	21°20'45.74" E
631	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Satkosia Forest cluster	86°07'12.69" N	21°20'21.15" E
632	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Satkosiaamal Nama Hill Block	86°11'05.84" N	21°21'25.81" E
633	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Suninda	86°10'47.55" N	21°32'11.06" E
634	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Thakurmunda	86°09'37.81" N	21°31'13.07" E
635	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Baghamara	86°12'30.32" N	21°17'32.41" E
636	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Bausapani	86°12'23.94" N	21°18'02.35" E
637	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Balidiha	86°12'10.48" N	21°19'09.06" E
638	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Dhenkisala	86°12'56.00" N	21°22'55.60" E
639	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Bhaliadol	86°13'43.08" N	21°14'21.70" E
640	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Nada	86°12'06.84" N	21°18'27.13" E
641	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Salachua	86°11'17.15" N	21°18'57.81" E
642	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Baunsagari	86°13'04.47" N	21°18'52.91" E
643	MAYURBHANJ	Thakurmunda	Duarasuni(part)	86°10'11.44" N	21°20'10.77" E
644	MAYURBHANJ	Kaptipada	Pungichua	86°18'43.20" N	21°21'20.90" E
645	MAYURBHANJ	Udala	Adipur	86°32'14.77" N	21°42'52.12" E
646	MAYURBHANJ	Udala	Ambikadeipur	86°31'14.75" N	21°43'40.83" E
647	MAYURBHANJ	Udala	Anantapur	86°28'26.46" N	21°37'17.42" E
648	MAYURBHANJ	Udala	Angarpada	86°31'29.88" N	21°37'54.08" E
649	MAYURBHANJ	Udala	Badakhman	86°29'33.26" N	21°36'48.77" E
650	MAYURBHANJ	Udala	Balabhadrapur	86°30'04.78" N	21°38'48.87" E
651	MAYURBHANJ	Udala	Balichhatara	86°31'35.92" N	21°38'37.57" E
652	MAYURBHANJ	Udala	Brahmapur	86°31'46.17" N	21°41'25.88" E
653	MAYURBHANJ	Udala	Chandrapur	86°32'57.45" N	21°40'49.58" E
654	MAYURBHANJ	Udala	Damasahi	86°31'41.77" N	21°40'09.46" E
655	MAYURBHANJ	Udala	Gobindapur	86°30'49.74" N	21°39'09.24" E
656	MAYURBHANJ	Udala	Jamudiha	86°29'53.17" N	21°41'00.68" E
657	MAYURBHANJ	Udala	Khaladi	86°31'21.06" N	21°42'18.65" E
658	MAYURBHANJ	Udala	Kundabai	86°29'48.87" N	21°39'35.72" E
659	MAYURBHANJ	Udala	Manikpur	86°29'23.52" N	21°38'22.35" E
660	MAYURBHANJ	Udala	Matihudi	86°31'20.97" N	21°40'54.54" E
661	MAYURBHANJ	Udala	Nayarangamatia	86°30'38.15" N	21°37'58.51" E
662	MAYURBHANJ	Udala	Nuagaon	86°30'50.09" N	21°40'07.42" E
663	MAYURBHANJ	Udala	Patasanipur	86°32'17.46" N	21°42'06.70" E
664	MAYURBHANJ	Udala	Salmundali	86°30'23.41" N	21°35'22.50" E

665	MAYURBHANJ	Udala	Sridamchandrapur	86°32'13.24" N	21°39'38.39" E
666	MAYURBHANJ	Udala	Tentala	86°30'54.35" N	21°41'38.39" E
667	MAYURBHANJ	Udala	upartaldiha	86°28'55.83" N	21°40'03.54" E
668	KEONJHAR	Anandapaur	Paitapani	86°12'29.79" N	21°16'57.72" E
669	KEONJHAR	Anandapaur	Kathakata	86°13'37.46" N	21°15'22.75" E
670	KEONJHAR	Hatadihi	Thunigaon	86°15'21.16" N	21°12'35.05" E
671	KEONJHAR	Hatadihi	Baidakhia	86°15'45.74" N	21°12'32.88" E
672	KEONJHAR	Hatadihi	Karanjabati	86°16'15.96" N	21°12'52.20" E
673	KEONJHAR	Hatadihi	Saralapati	86°15'47.70" N	21°12'48.39" E
674	KEONJHAR	Hatadihi	Sundarapal	86°16'15.31" N	21°12'30.47" E
675	KEONJHAR	Hatadihi	Purunapani	86°16'58.68" N	21°13'29.47" E
676	KEONJHAR	Hatadihi	Madhubana	86°17'53.59" N	21°18'12.00" E
677	KEONJHAR	Saharapada	Sankatapalia	86°07'31.76" N	23°01'45.00" E

**ANNEXURE -V****Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.